



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23—दिसम्बर 29, 2006 (पौष 2, 1928)  
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23—DECEMBER 29, 2006 (PAUSA 2, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

#### भारतीय स्टेट बैंक

मुम्बई, दिनांक 17 नवम्बर 2006

एसबीडी क्र. 10/2006-07--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 29 (1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक मंडल से परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री ए. सी. वर्मा को कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष तक की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक पद पर नियुक्त किया है।

ओम प्रकाश भट्ट  
अध्यक्ष

#### पंजाब नेशनल बैंक

दिनांक 14 नवम्बर 2006

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5)/1980 (1980 का 4) की धारा 19 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक मंडल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्वारा पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, नामतः :--

- (1) इन विनियमों को पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमावली, 2006 कहा जाएगा।  
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली, 2000 के विनियम 2 क में, उप-विनियम (i) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :--

“(i) विनियम 67 के खंड (ii) में यथा उपलब्ध को छोड़कर, बोर्ड इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, जब भी आवश्यक होगा,

निम्नलिखित को शामिल कर एक समिति गठित कर सकेगा :--

- (क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में, उनके द्वारा नामित कार्यपालक निदेशक;
- (ख) दो अन्य निदेशक जैसा बोर्ड उचित समझे;
- (ग) बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले बैंक के तीन अधिकारी उप महाप्रबंधक के स्तर से कम नहीं होंगे।"

जी. बी. सिंह  
उप सचिव,

टिप्पणी :

दिनांक 5 जून, 1999 की अधिसूचना के तहत मूल विनियमों को प्रकाशित किया गया था और बाद में 22 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना के तहत इनमें संशोधन किया गया था।

#### कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2006

सं. एन-15/13/7/2006-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा बंगलौर कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

"जिला बेंगलूर के तालुक बेंगलूर दक्षिण में होबली उत्तराहल्ली एवं बेगुर के राजस्व ग्राम हुलिमावु, आलहल्ली, कॉलेन अग्रहारा गोदियेरे तथा कोतनूर/कोतनूरदिने के अधीन आने वाले क्षेत्र।"

एम. सुन्दररामन  
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/6/2/2006-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

"जिला तिरुवनन्तपुरम के चिरयिनकीषु तालुक में वामनापुरम।"

एम. सुन्दररामन  
निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 4 दिसम्बर 2006

सं. यू. 16/53/99 (आ.प्र.) चि. 3--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा चारंगल (आन्ध्र प्रदेश राज्य) के लिए डॉक्टर के. सुधाकर राव को चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए बीमाकृत व्यक्तियों की जांच के लिए व मूल प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में दिनांक 5.12.2005 से 4.12.2006 की अवधि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करती हूँ।

डॉ. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

## राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2006

संख्या एन.सी.डी.सी: 1-1/88-प्रशा.- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा विनियमावली - 1967 के विनियम संख्या - 7 ए में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम के प्रबंध मंडल ने दिनांक 24 अक्टूबर, 2006 को सम्पन्न अपनी बैठक में संकल्प लिया कि:-

(i) उप प्रबंध निदेशक के पद हेतु भर्ती नियमों में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाए :-

(क) कॉलम संख्या 7, जो “भर्ती का तरीका” से संबंधित है, में वर्तमान प्रावधान निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएं :-  
“50% भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा 50% पदोन्नति द्वारा”

(ख) कॉलम संख्या 8, जो “पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के मामले में अपेक्षाएं” से संबंधित है, में प्रतिनियुक्ति के लिए दिए गए वर्तमान प्रावधान के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाए :-

“पदोन्नति : ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित वित्तीय सलाहकार/कार्यकारी निदेशक”

(ii) वित्तीय सलाहकार के पद हेतु भर्ती नियमों के कॉलम संख्या 8, जो “पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के मामले में अपेक्षाएं” से संबंधित है, में पदोन्नति से संबंधित वर्तमान प्रावधान निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएं:-

“ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित मुख्य निदेशक (वित्त)”

(iii) मुख्य निदेशक (वित्त) के पद हेतु भर्ती नियम इस प्रकार से हैं :-

पद का नाम	वर्गीकरण	वेतनमान (रु०)	चयनित अथवा गैर चयनित	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	भर्ती का तरीका	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के मामले में अपेक्षाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
मुख्य निदेशक (वित्त)	‘क’	14300-400-18300/-	चयनित	45 वर्ष	चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा आई.सी.डब्ल्यू.ए. किसी बैंक, वित्तीय/विकासात्मक सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में वित्तीय प्रबंधन, लेखा विधि तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ/कार्यपालक पद पर 8 वर्ष का योग्यता उपरांत अनुभव तथा कम्प्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए	पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति: ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित निदेशक (वित्त)। प्रतिनियुक्ति: उल्लिखित पद हेतु सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव के पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले केन्द्रीय/राज्य सरकारों के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त/सांविधिक निकायों, अर्द्धसरकारी संस्थाओं, बैंकों तथा वित्तीय/विकासात्मक संस्थाओं, सरकारी कम्पनियों अथवा सहकारी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति पात्र होंगे।

2. उपर्युक्त संशोधन दिनांक 24 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी होंगे।

पी. उमाशंकर  
प्रबंध निदेशक

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम 1966 (1966 के 53वें) की धारा 20 की उप-धारा (2) के अनुसार वांछित वर्ष 2004-2005 के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

रेवती बेद  
वित्त अधिकारी

## 31 मार्च, 2005 को तुलन-पत्र

कार्पस/पूजीगत निधि और देयताएं

(राशि रु.)

देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
पूजीगत निधि	1	78,55,75,652	1,65,14,29,912
कार्पस निधि	2	7,58,88,827	5,16,06,143
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	3	23,89,07,166	14,22,40,457
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	4	61,97,32,659	39,31,88,993
योग		1,72,01,04,304	2,23,84,65,505
परिसम्पत्तियां			
स्थाई परिसम्पत्तिया (निबल ब्लाक)	5	78,22,49,262	1,45,63,54,521
निवेश-उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियां	6	20,79,56,888	14,59,91,655
वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम	7	72,98,98,154	63,61,19,329
योग		1,72,01,04,304	2,23,84,65,505

विशिष्ट लेखांकन नीतियां

21

समाव्य देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां

22

Scd/-

सहायक वित्त अधिकारी

Scd

उप वित्त अधिकारी

Scd

वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा  
(राशि रु.)

क. आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुदान/सहायता राशि	8	58,87,68,841	56,95,19,026
शैक्षिक प्राप्तियां	9	4,94,85,147	3,89,18,589
निर्देशों से आय	10	—	—
रॉयल्टी, प्रकाशनों से आय	11	2,65,155	1,56,599
अर्जित ब्याज	12	1,62,54,097	43,29,020
अन्य आय	13	1,48,12,999	1,63,90,313
पूर्व अवधि आय	14	14,82,301	—
योग (क)		67,10,68,540	62,93,13,547
ख. व्यय			
स्थापना व्यय	15	45,99,19,565	43,62,92,637
शैक्षिक व्यय	16	3,63,25,450	4,99,99,214
प्रशासनिक व्यय	17	15,16,90,028	9,39,27,507
मरम्मत व अनुरक्षण	18	3,00,47,125	2,31,35,466
विविध व्यय	19	1,54,115	41,095
मूल्य ह्रास	5	10,05,99,131	—
पूर्व अवधि खर्च	20	18,50,59,013	—
योग (ख)		96,37,94,427	60,33,95,919

शेष अधिशेष/(कमी) होने के कारण पूंजीगत

निधि (क-ख) में अग्रणीत कर दिया

29,27,25,887

2,59,17,628

विशिष्ट लेखांकन नीतियां

संभाव्य देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां

21

22

सहायक वित्त अधिकारी

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	1,65,14,29,912	1,48,59,93,349
जमा - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का पूंजीगत खर्च के लिए उपयोग	11,08,95,747	12,43,55,274
जमा - एक्जिम बैंक निधि से खरीदी गई मुस्तकें	2,04,273	-
जमा - दान में प्राप्त परिसम्पत्तियाँ/प्राप्त उपहार	1,99,906	1,51,63,661
योग	1,76,27,29,838	1,62,55,12,284
घटा - केन्द्रीय विद्यालय की लागत का 2/3 भाग कम होने के कारण पूंजीगत निधि में कमी	- 61,66,000	-
घटा - वर्ष 2003-04 सहित सभी वर्षों तक मूल्यहास होने के कारण पूंजीगत निधि में कमी	- 67,82,62,298	-
घटा - आय और व्यय लेखा से स्थानांतरिक घाटा	- 29,27,25,887	2,59,17,628
वर्ष के अंत में शेष	78,55,75,652	1,65,14,29,912

Scd/-

सहायक वित्त अधिकारी

Scd/-

उप वित्त अधिकारी

Scd/-

वित्त अधिकारी

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	5,16,06,143	3,76,13,749
जमा - नामांकन शुल्क	29,24,170	40,04,744
जमा - मान्यता शुल्क और संबंधन प्रभार	30,00,485	30,00,000
जमा - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरूपी अंशदान	-	58,06,092
जमा - विश्वविद्यालय परामर्श शुल्क का अंश	13,02,262	1,39,071
जमा - ब्याज आय (इसमें प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों के निवेश और बैंक खाता पर ब्याज की राशि रू. 1,44,09,912 शामिल है।)	1,82,73,617	22,06,059
योग	7,71,08,676	5,27,69,715
घटा - राजस्व व्यय	12,17,849	11,63,572
वर्ष के अंत में शेष	7,58,88,827	5,16,06,143

टिप्पणी : 1. रू. 1,44,09,912 की राशि में रू. 1,27,31,826 का भुगतान निम्नलिखित में से करना शेष है।

2. रू. 7,58,88,827/- का शेष जिसे निम्न रूप से दर्शाया गया है :

निवेश	5,18,27,000
बचत खाता में शेष	95,74,502
प्रायोजित परियोजना खाता से देय राशि	1,27,31,626
प्रायोजित परियोजनाओं की निधि के निवेश पर ब्याज	16,78,286
प्राप्त हुआ, लेकिन देय नहीं	
कार्पस निधि के निदेश पर ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन देय नहीं	77,413

Sd/-  
सहायक वित्त अधिकारी

Sd/-  
उप वित्त अधिकारी

Sd/-  
वित्त अधिकारी

## अनुसूची-3 : उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियां

विवरण	गृहनिर्माण अग्रिम निधि	वाहन निधि	एस्किम बैंक पुस्तकालय निधि	वि.वि.अ.आ. जे.आर.एफ. निधि	निष्पन्न फाउन्डेशन निधि	जिनेटिक इंजीनियरी यूनिट निधि	अनुपयुक्त मानव आनुवंशिकी केन्द्र निधि	विज्ञान नीति में विशेष कार्यक्रम	भारतीय स्टेट बैंक शोध और विकास खाता	राशि रुपयों में	
										वृत्तिदान निधि	योग चालू वर्ष
क. अथ शेष	3,21,51,150	43,60,404	15,73,150	3,63,24,786	3,34,841	1,47,761	16,13,945	—	21,436	6,57,12,984	14,22,40,457
ख. वर्ष के दौरान परिवर्धन **	1,16,54,920	68,14,677	—	3,19,42,792	4,40,15,632	—	14,93,200	8,25,412	—	56,16,917	10,23,63,550
ग. निधियों के निवेश से आय *	15,71,654	1,12,796	28,044	10,46,300	8,84,938	5,217	30,204	12,714	3,700	68,12,083	1,05,07,649
घ. निधियों के निवेश से अर्जित व्याज *	4,32,968	—	16,042	4,54,652	2,08,128	—	—	—	—	14,50,163	25,61,953
च. अन्य परिवर्धन .....	2,65,64,638	1,16,44,497	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ज. योग (क+ख+ग)	7,23,75,330	2,28,32,374	16,17,238	6,97,88,530	4,54,43,539	1,52,978	31,37,349	8,38,126	25,136	7,95,92,147	29,57,82,744
झ. निधियों के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय	35,25,381	1,03,28,434	2,04,273	3,65,94,011	4,15,500	—	27,05,663	3,19,813	—	27,82,503	5,68,75,578
ञ. राजस्व व्यय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ट. पूंजीगत व्यय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ड. योग (ग)	35,25,381	1,03,28,434	2,04,273	3,65,94,011	4,15,500	—	27,05,663	3,19,813	—	27,82,503	5,68,75,578
ढ. वर्ष के अंत में अंतराेष (क+ख+ग)	6,88,49,948	1,25,03,940	14,12,963	3,31,74,519	4,50,28,039	1,52,978	4,31,686	5,18,313	25,136	7,66,09,644	23,89,07,166
न. निम्न के द्वारा प्रस्तुत रोकड़ और बैंक जमा निवेश	2,65,94,510	15,98,846	2,96,921	27,19,866	8,04,279	1,52,978	4,31,685	5,18,313	25,136	2,17,45,225	4,48,87,759
त. व्याज भिन्ना लेकिन देय नहीं मार्च के क्षेप से वसूली योग राशि	1,85,00,000	—	11,00,000	3,00,00,000	4,40,15,632	—	—	—	—	6,36,14,256	15,72,29,888
	2,30,69,248	1,03,81,413	16,042	4,54,662	2,08,128	—	—	—	—	14,50,163	3,55,79,846
	6,86,191	5,23,680	—	—	—	—	—	—	—	—	12,09,671
	6,98,49,949	1,25,03,939	14,12,983	3,31,74,518	4,50,28,039	1,52,978	4,31,685	5,18,313	25,136	7,68,09,644	23,89,07,164
पूर्व गर्	3,21,51,150	43,60,404	15,73,150	3,63,24,786	3,34,841	1,47,761	16,13,945	—	21,436	6,57,12,984	14,22,40,457

टिप्पणी \* अनुसूची 12 'क' देखें

\*\* निष्पन्न फाउन्डेशन से प्राप्त 10 लाख

गु.आ. खाता भारतीय स्टेट बैंक गवर्नी में जमा है। लेखांकन नीति 8.5 देखें

Sd/-  
सहायक वित्त अधिकारीSd/-  
उप वित्त अधिकारीSd/-  
वित्त अधिकारी



## अनुसूची-4 : वर्तमान देयताएं और प्रावधान

राशि रूपयों में		वर्तमान देयताएं	घातू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	वर्तमान देयताएं			
1.	स्टाफ से जमा		6,39,249	-
2.	छात्रों से जमा -			
i	पुस्तकालय निधि		1,18,950	1,19,450
ii	छात्र सहायता निधि		1,62,206	2,80,187
iii	छात्र निधि		11,52,605	9,27,611
iv	छात्र छात्रावास प्रतिभूति		4,21,089	4,13,339
v	छात्र प्रतिभूति जम्मा		16,06,927	15,36,327
3.	अन्य जमा (इ.एम्.डी., प्रतिभूति जमा आदि सहित)		3,39,34,938	2,73,19,757
4.	सांविधिक देयताएं (जी.आई.एस., जी.पी.एफ., टी.डी.एस., वर्क कंटेक्ट टेक्स)		-	-
क.	पुरानी देय राशि		-	-
ख.	अन्य		1,02,11,756	-
5.	अन्य वर्तमान देयताएं			
क)	केतन		1,67,95,824	-
ख)	घत रहें प्रायोजित/परामर्श/परियोजना हेतु प्राप्तियां (नेट)		17,95,37,515	15,53,79,791
ग)	प्रायोजित सम्मेलनों/संगोष्ठियों हेतु प्राप्तियां (नेट)		-	-
घ)	वितरण हेतु परामर्श शुल्क, बौद्धिक शुल्क		-	-
ङ)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त अभ्यर्थित अनुदान-अंगीनीत		33,06,33,578	20,55,19,695
च)	अन्य निधियां		3,45,916	3,41,302
छ)	अन्य (ब्यौरा दें)			
i	एस. क्रेडिटर्स सहित बकाया देयताएं		2,97,03,203	-
ii	जीवन बीमा निगम सामूहिक बीमा दावे		1,68,356	1,54,750
iii	अन्य बालू देयताएं		18,48,970	11,96,784
ज)	प्रायोजित अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्तियों हेतु प्राप्तियां		89,80,366	-
योग (क)			61,62,81,448	39,31,88,993
ख.	प्रावधान			
1.	उपदान*		2,41,780	-
2.	अधिवर्षिता/पेंशन*		31,09,431	-
3.	छुट्टी नकदीकरण		-	-
4.	दावे		-	-
5.	अन्य (ब्यौरा दें)		-	-
योग (ख)			34,51,211	-
योग (क + ख)			61,97,32,659	39,31,88,993

\* पूर्व नियोजकों से प्राप्त पूंजीगत मूल्य

साहायक वित्त अधिकारी

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची-4.5 (ई) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

क. योजना अनुदान : भारत सरकार	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
शेष अग्रानीत जोड़ - वर्ष के दौरान प्राप्तियां घटा - राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त घटा - पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त अप्रयुक्त अग्रानीत	- 1,87,33,444 55,50,600 1,31,82,844 -	
खा. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान		
शेष अग्रानीत वर्ष के दौरान प्राप्तियां घटा - राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त घटा - पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त अप्रयुक्त अग्रानीत*	34,30,37,337 66,84,37,683 58,31,28,539 9,77,12,903 33,06,33,578	
ग. भारत सरकार से अनुदान		
शेष अग्रानीत जोड़ - वर्ष के दौरान प्राप्तियां घटा - राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त घटा - पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त शेष अग्रानीत	- 89,702 89,702 - -	
प्राप्त कुल अनुदान	68,72,60,829	

टिप्पणी : \*पूंजीगत व्यय के लिए पूंजीगत खाता पर अग्रिम शामिल है।

सहायक वित्त अधिकारी

रूप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

राशि रुपयों में

क्र.सं.	परिसम्पत्तियां गीर्ब	कुल ब्लाक				वर्ष 2004-05 के लिए मूल्यहास				नेट ब्लाक 31.03.2005	नेट ब्लाक 31.03.2004
		अधशेष 01.04.04	परिवर्धन	कटौतियां	अन्त शेष	मूल्यहास अधशेष	वर्ष के लिए मूल्यहास	कटौतियां- समायोजन	कुल मूल्यहास		
1	भूमि	2,44,53,672	-	-	2,44,53,672	-	-	-	-	2,44,53,672	2,44,53,672
3	साइट विकास	5,38,67,150	2,75,570	-	5,41,42,720	-	-	-	-	5,41,42,720	5,38,67,150
7	भवन	37,48,58,148	13,02,408	-	37,61,60,556	7,97,02,375	75,23,211	-	8,72,25,586	28,89,34,970	29,51,55,773
	भवन (केन्द्रीय विद्यालय)	61,66,000	-	-61,06,000	-	-	-	-	-	-	61,66,000
5	सड़क व पुल	7,04,489	-	-	7,04,489	69,883	14,090	-	83,973	6,20,516	6,34,806
2	नलकूप व जल-आपूर्ति	86,86,628	14,06,395	-	1,00,93,023	19,48,907	2,01,904	-	21,50,811	79,44,412	87,37,921
4	सीवर और जल विकास	23,20,720	95,409	-	24,18,129	8,96,212	48,323	-	7,44,535	16,71,594	18,24,508
6	विद्युत स्थापना और उपकरण	6,96,65,472	80,67,693	-	7,77,33,365	2,74,06,073	38,86,668	-	3,12,92,741	4,64,40,624	4,22,59,399
8	प्लांट व मशीनरी	42,33,904	11,28,903	-	53,62,807	12,89,926	2,68,140	-	15,58,066	38,04,741	29,43,978
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	19,37,07,800	73,97,413	-	19,11,05,213	14,02,11,142	1,52,88,417	-	15,54,99,559	3,56,05,654	4,34,96,658
10	कार्यालय उपकरण	1,72,71,832	27,86,190	-	2,00,58,022	1,32,42,689	15,04,502	-	1,47,47,191	53,12,631	40,29,143
11	आडियो विजुअल उपकरण	1,98,86,821	8,65,153	-	2,07,53,974	1,71,87,314	15,56,548	-	1,87,43,862	20,10,112	27,01,507
12	कंप्यूटर और परिकर	11,71,04,666	2,04,88,407	-	13,75,91,093	9,63,08,860	2,75,16,219	-	12,38,27,079	1,37,64,014	2,07,95,828
13	कर्मचारी: फिक्स्ड और फ्लैटिंग	4,73,67,496	1,21,32,401	-	5,94,99,897	2,63,35,329	44,62,492	-	3,07,97,621	2,87,02,076	2,10,32,167
14	वाहन	44,57,123	3,87,305	-	48,24,428	44,57,122	36,731	-	44,93,853	3,30,575	1
15	पुस्तकालय पुस्तकें और शैक्षणिक पत्रिकाएं	27,84,18,903	2,81,16,957	-	30,65,35,860	23,77,41,983	3,06,53,586	-	26,83,95,569	3,31,40,291	4,06,76,920
16	अन्य	7,63,63,000	-	-	7,63,63,000	3,16,64,483	76,36,300	-	3,93,00,783	3,70,62,217	4,46,98,517
	एच.बी.आई. और राजस्व व्यय	5,12,874	-	-3,77,756	1,35,118	-	-	-	-	1,35,118	5,12,874
	योग	1,29,06,48,918	6,44,32,404	-65,43,758	1,36,79,37,386	67,82,82,298	10,05,99,131	-	77,88,61,429	58,90,76,137	61,17,86,620
18	प्राप्ति पर मुख्य कार्य	16,63,05,603	2,86,67,522	-	19,31,73,125	-	-	-	-	19,31,73,125	18,63,05,603
	कुल योग (1-18)	1,45,83,54,521	11,12,99,926	-65,43,756	1,58,11,10,691	67,82,62,298	10,05,99,131	-	77,88,61,429	78,22,49,262	77,80,92,223

टिप्पणी : वर्ष के दौरान रु. 11,12,99,926 का परिवर्धन - राजनागत रु. 9,24,30,123, योजनेतर रु. 4,84,65,824, उद्दिष्ट निधि (एजिजम बैंक पुस्तकालय) - रु. 2,04,273 और रु. 1,99,906 की विरुद्धिवालय को धन में प्राप्त पुस्तकें।

Self  
सहायक वित्त अधिकारी

Self  
उप वित्त अधिकारी

Self  
वित्त अधिकारी

राशि रुपयों में

क्र.सं.	परिसम्पत्तियां शीर्ष	कुल स्टाक				वर्ष 2004-05 के लिए मूल्यहास						निबल स्टाक 31.03.2005	निबल स्टाक 31.03.2004
		अधशेष 01.04.04 (योजनागत)	परिवर्धन (योजनागत)	परिवर्धन (योजनागत)	कटौतियां (योजनागत)	अन्त शेष	मूल्यहास अधशेष	अधशेष पर मूल्यहास	योजनागत पर मूल्यहास	योजनागत पर मूल्यहास	कुल मूल्यहास		
1	भूमि	2,44,53,672	-	-	-	2,44,53,672	-	-	-	-	-	2,44,53,672	2,44,53,672
3	स्थल विकास	5,38,67,150	-	2,75,570	-	5,41,42,720	-	-	-	-	-	5,41,42,720	5,38,67,150
7	भवन	37,43,58,148	13,02,408	-	-	37,81,60,556	7,97,02,375	74,97,163	26,048	-	8,72,25,586	28,89,34,970	28,51,55,773
	भवन (केन्द्रीय विद्यालय)	61,88,000	-	-	-81,68,000	-	-	-	-	-	-	-	61,66,000
5	सड़क व पुल	7,04,489	-	-	-	7,04,489	69,883	14,090	-	-	83,973	6,20,516	6,34,606
2	नलकूप व जल-आपूर्ति	98,86,828	3,97,813	10,10,582	-	1,00,95,223	19,48,907	1,73,737	7,956	20,212	21,50,811	79,44,412	87,37,921
4	सीवर और जल विकास	23,20,720	-	96,409	-	24,16,129	6,96,212	46,414	-	1,908	7,44,535	16,71,595	16,24,508
6	विद्युत स्थापना और उपकरण	8,96,65,472	40,54,328	40,13,568	-	7,77,33,365	2,74,06,073	34,83,274	2,02,716	2,00,678	3,12,92,741	4,84,40,624	4,22,59,399
8	फ्लोट व मशीनरी	42,33,904	43,680	10,85,223	-	53,62,807	12,88,928	2,11,695	2,184	54,281	15,58,066	38,04,741	29,43,978
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	18,37,07,800	57,29,597	18,67,816	-	19,11,05,213	14,02,11,142	1,46,96,624	4,58,368	1,33,425	15,54,99,559	3,56,05,654	4,34,96,658
10	कार्यालय उपकरण	1,72,71,832	4,47,440	23,40,750	-	2,00,60,022	1,32,42,989	12,95,367	33,558	1,75,556	1,47,47,191	53,12,831	40,29,143
11	पुरय श्रम्य उपकरण	1,98,88,821	-	8,65,153	-	2,07,53,974	1,71,87,314	14,91,662	-	64,886	1,87,43,862	20,10,112	27,01,507
12	कंप्यूटर और परिफेरल्स	11,71,04,686	1,70,00,739	34,85,668	-	13,75,91,093	9,63,08,860	2,34,20,937	34,00,148	8,97,134	12,38,27,079	1,37,64,014	2,07,95,826
13	फर्नीचर, फिक्चर और फिटिंग्स	4,73,67,496	9,29,339	1,12,08,002	-	5,94,99,897	2,63,35,329	35,52,562	69,705	8,40,225	3,07,97,821	2,87,02,076	2,10,32,167
14	वाहन	44,57,123	3,52,865	14,450	-	48,24,428	44,57,122	-	35,286	1,445	44,93,653	3,30,575	1
15	पुरातात्विक पुरातन और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	27,04,18,903	1,10,73,019	1,70,43,838	-	30,85,35,860	23,77,41,983	2,78,41,890	11,07,302	17,04,394	26,83,95,569	3,81,40,291	4,06,76,920
16	अन्य	7,63,63,000	-	-	-	7,63,63,000	3,16,64,483	76,36,300	-	-	3,93,00,783	3,70,62,217	4,46,98,517
	एस.बी.आई. और राजस्व अग	5,12,874	-	-	-3,77,758	1,35,118	-	-	-	-	-	1,35,118	5,12,874
	योग	1,29,00,48,916	4,13,31,278	4,31,01,126	-5,43,758	1,36,79,37,566	67,82,62,298	9,13,61,735	53,43,271	38,94,125	77,82,61,429	58,90,76,137	61,17,86,620
18	प्रगति पर मुख्य कार्य	16,63,05,803	2,10,98,845	57,68,677	-	19,31,73,125	-	-	-	-	-	19,31,73,125	16,63,05,803
	कुल योग (1-18)	1,45,83,54,521	6,24,30,123	4,86,69,803	-65,43,758	1,56,11,40,891	67,82,62,298	9,13,61,735	53,43,271	38,94,125	77,82,61,429	78,22,49,262	77,80,92,223

\* इतरां रु. 2,04,273/- एवम् नै.ग. पुरातात्विक निधि और विश्वविद्यालय को दान में प्राप्ता रु. 1,99,008 रु. की पुस्तकें शामिल हैं।

सहायक वित्त अधिकारी

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

## अनुसूची-6 : कार्पस निधि और उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि से निवेश

राशि रूपयों में		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों		1,98,27,000	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों		-	-
3. डिपेंचर और बान्ड्स		3,20,00,000	-
4. अन्य बैंक आवधिक जमा रसीद में		20,79,56,888	14,59,91,655
योग		20,79,56,888	14,59,91,655

## उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि (निधि-वार)

राशि रूपयों में		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
निवेश			
1. कार्पस निधि निवेश		5,18,27,000	3,86,43,757
2. वृत्तिदान निधि निवेश		6,36,14,256	5,88,47,898
3. गृह निर्माण अग्रिम निधि निवेश		1,85,00,000	1,85,00,000
4. निष्पन्न फाउण्डेशन निधि निवेश*		4,40,15,832	-
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्येतावृत्ति निधि निवेश		3,00,00,000	3,00,00,000
योग		20,79,56,888	14,59,91,655

\* निष्पन्न फाउण्डेशन से प्राप्त 10 लाख यू.एस. डालर भारतीय स्टेट बैंक बहरीन में जमा हैं। लेखांकन नीति 8.5 देखें।

साहायक वित्त अधिकारी

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

## अनुसूची-7 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

राशि रूप्यों में		
विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां		
3. रोकड़ और बैंक शेष		
क. हाथ रोकड़ (स्टाम्प्स, अग्रदाय रोकड़ और बैंक / ड्राफ्ट सहित)	2,70,368	1,10,775
ख. अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष		
- चालू खातों में	-	-
- जमा खाता (आवधिक जमा सहित में)*	21,44,31,360	17,45,31,360
- बचत खातों में	34,18,48,568	43,83,31,152
ग. कैश इन ट्रांजिट	-	-
योग (क)	55,65,50,296	61,29,73,287

टिप्पणी : परिशिष्ट क बैंक शेषों के विवरण को दर्शाते हैं।

- \* योजना खाता आवधिक जमा में कैम्पस रेडियो के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए बैंक गारण्टी के लिए रु. 50,000 / - आवधिक जमा के रूप में शामिल हैं।

Sd/-  
सहायक वित्त अधिकारी

Sd/-  
उप वित्त अधिकारी

Sd/-  
वित्त अधिकारी

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
ख. ऋण और अग्रिम	-	-
क. ऋण	-	-
ख. कर्मचारियों को अग्रिम (बिना ब्याज के)	-	-
- वेतन	-	-
- त्योहार	3,36,521	4,35,071
- छुट्टी यात्रा रियायत	7,10,570	-
ग.	-	-
- आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	-	-
- पूंजीगत खाता पर अग्रिम	12,67,07,187	2,25,85,142
- अन्य	56,32,819	-
घ. पूर्वदत्त व्यय	-	-
- बीमा	42,578	-
- अन्य व्यय	3,95,622	-
ङ. आय प्राप्त की लेकिन देय नहीं	-	-
- निवेश पर	-	-
उद्दिष्ट वृत्तिदान निधि से	3,55,79,546	-
जमा खाता	2,34,919	-
कार्पस निधि	77,413	-
प्रयोजित परियोजना (कार्पस निधि में जमा)	16,78,286	-
योजनागत खाता में से किया गया आवधिक जमा	19,52,297.	-
च. अन्य चालू परिसम्पत्तियां, विविध व्यय	-	1,04,351
छ. प्राप्य दावे (सामूहिक बीमा अभिदान)	-	21,478
योग ख	17,33,47,858	2,31,48,042
योग (क+ख)	72,98,98,154	63,61,19,329

टिप्पणी : चूंकि परिक्रमी निधि का सृजन स्टाफ के लिए गृह निर्माण, कंप्यूटर और वाहन अग्रिमों के लिए किया गया है, अतः अग्रिमों को उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि के रूप में दर्शाया जाएगा। इन अग्रिमों के शेषों को इस अनुसूची में नहीं दर्शाया जाएगा।

Sd/-  
सहायक वित्त अधिकारी

Sd/-  
उप वित्त अधिकारी

Sd/-  
वित्त अधिकारी

अनुसूची—क	राशि रूप्यों में
बैंक खाते	
उद्दिष्ट निधि खाता	17,62,60,515
सामान्य खाता (डाकघर में)	1,15,618
गोमती अतिथि गृह खाता	2,28,197
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग खाता से अनुदान	3,02,89,438
जेएनयू प्रवेश परीक्षा खाता	1,84,19,431
छात्रवृत्ति खाता	25,46,788
विश्वविद्यालय प्राप्ति	80,10,783
अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी केन्द्र खाता	4,31,685
संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीबीटी) खाता	3,31,03,435
कार्पस निधि खाता	95,74,502
जमा खाता	2,11,34,911
विकास (योजनगत) खाता	48,86,723
डीएसटी आनुवंशिकी इंजीनियरी यूनिट खाता	1,52,978
एविजम बैंक पुस्तकालय खाता	2,96,921
अध्येतावृत्ति खाता	27,19,866
निप्पन फाउण्डेशन (एफ.डी.आर.ए.) खाता	8,04,279
एस.बी.आई. वाहन खाता	15,98,846
एस.बी.आई. गृह निर्माण अग्रिम निधि खाता	2,65,94,510
एस.बी.आई. शोध एवं विकास खाता	25,136
वेलफेयर स्टेट सिस्टम पर संगोष्ठी विकास खाता	2,12,105
छात्र खाता	36,31,594
छात्र एयर निधि खाता	2,91,994
विज्ञान नीति में विशेष कार्यक्रम	5,18,313
	34,18,48,568
अनुसूचित दैकों में आवधिक जमा	21,44,31,360
योग	55,62,79,928

Sd/-  
सहायक विप्र अधिकारी

Sd/-  
उप वित्त अधिकारी

Sd/-  
वित्त अधिकारी



31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता के भाग की अनुसूचियां अनुसूची-8 : अनुदान/आर्थिक सहायता (निर्गम अनुदान और प्राप्त आर्थिक सहायता)

राशि रूपयों में

विवरण	भारत सरकार	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	राज्य सरकार	योग
शेष अग्रणीत	—	34,30,37,337	—	34,30,37,337
जमा - वर्ष के दौरान प्राप्ति	1,87,33,444	66,84,37,683	89,702	68,72,60,829
योग	1,87,33,444	1,01,14,75,020	89,702	1,03,02,98,166
घटा - पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त	1,31,82,844	9,77,12,903	—	11,08,95,747
शेष	55,50,600	91,37,62,117	89,702	91,94,02,419
घटा - शेष अग्रणीत	—	33,06,33,578	—	33,06,33,578
घटा - राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त	55,50,600	58,31,28,539	89,702	58,87,68,841

Sd/-  
सहायक वित्त अधिकारी

Sd/-  
उप वित्त अधिकारी

Sd/-  
वित्त अधिकारी

राशि रूपयों में

क्र.सं.	विवरण	योजनगत	योजनेत्तर	योग
1	अथ शेष	20,33,71,558	13,96,65,779	34,30,37,337
2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	14,82,44,683	52,01,93,000	66,84,37,683
3	भारत सरकार से अनुदान	1,87,33,444	—	1,87,33,444
4	राज्य सरकार से अनुदान	89,702	—	89,702
5	कुल योग	37,04,39,387	65,98,58,779	1,03,02,98,166
6	घटा - पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त	6,24,30,123	4,84,65,624	11,08,95,747 (क)
7	शेष	30,80,09,264	61,13,93,155	91,94,02,419
8	घटा - शेष अग्रणीत	29,05,66,464	4,00,67,114	33,06,33,578 (ख)
9	राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त	1,74,42,800	57,13,26,041	58,87,68,841 (ग)

(क) वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि में परिवर्धन के साथ-साथ स्थायी परिसम्पत्तियों में परिवर्धन के रूप में दर्शाया गया।

(ख) (i) तुलन-पत्र में वर्तमान देयताओं में दर्शाया गया और यह अगले वर्ष अथ शेष बन जाएगा।

(ii) परिसम्पत्तियों के स्तम्भ में पूंजीगत/राजस्व खाते में बैंक शेष और अग्रिम द्वारा दर्शाया गया।

(ग) आय और व्यय खाते में आय के रूप में दर्शाया गया।

Sd/-  
सहायक वित्त अधिकारी

Sd/-  
उप वित्त अधिकारी

Sd/-  
वित्त अधिकारी

राशि रूपयों में

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क. छात्रों से शुल्क		
क) शैक्षिक		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क	1,89,62,728	80,53,806
2. प्रवेश शुल्क	95,63,372	1,05,77,949
3. नामांकन शुल्क	—	2,88,500
i. शिक्षण शुल्क	—	—
ii. पुस्तकालय शुल्क	—	—
iii. अन्य	—	—
ख) परीक्षा		
1. दार्षिक परीक्षा शुल्क	—	71,115
2. अंक तालिका शुल्क	50,921	—
3. अन्य-पंजीकरण शुल्क, ऊपरी खर्च	23,88,059	—
ग) अन्य शुल्क		
1. चिकित्सा शुल्क	—	—
2. दीक्षान्त समारोह शुल्क	—	—
3. अन्य विविध शुल्क	—	92,108
घ) छात्रावास शुल्क	5,29,355	6,80,377
ङ) प्रवेश फार्मों की बिक्री	1,66,21,432	1,91,54,934
च) प्रश्न-पत्रों की बिक्री	13,69,280	—
कुल	4,94,85,147	3,89,18,589

सहायक वित्त अधिकारी

उप वित्त अधिकारी

अनुसूची-11 : रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय

राशि रूपयों में

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. रॉयल्टी से आय	2,30,619	1,56,599
2. प्रकाशनों की बिक्री से आय	34,536	—
3. अन्य (व्यौरा दें)	—	—
कुल	2,65,155	1,56,599

साक्ष्य—  
राहायक वित्त/अधिकारी

साक्ष्य—  
उप वित्त अधिकारी

साक्ष्य—  
वित्त अधिकारी

## अनुसूची-12 : अर्जित ब्याज

राशि रूप्यों में

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा पर*	1,18,21,874	10,72,260
2. अनुसूचित बैंकों में बचत खाते पर	44,32,223	32,56,760
3. ऋण पर	—	—
क. कर्मचारियों/स्टाफ	—	—
ख. अन्य	—	—
4. देनदारों और अन्य प्राप्यों पर	—	—
कुल	1,62,54,097	43,29,020
स्रोत पर काटा गया कर	—	—

\* योजना खाते में से किए गए आवधिक जमा पर प्राप्त ब्याज के रूप में रु. 19,52,297 /— शामिल हैं।

Sd/-  
सहायक वित्त अधिकारी

Sd/-  
उप वित्त अधिकारी

Sd/-  
वित्त अधिकारी

अनुसूची-12क : उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि के निवेश से प्राप्त आय राशि रूप्यों में

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. व्याज		
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख. डिबेंचर और बांड पर	-	-
2. अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा पर	1,18,66,378	-
3. अनुसूचित बैंकों में द्रुत खातों पर	12,03,224	-
कुल (संबंधित उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि में स्थांतरित)	1,30,69,602	-
स्रोत पर काटा गया कर	-	-

—

सहायक वित्त अधिकारी

—

उप वित्त अधिकारी

—

वित्त अधिकारी

राशि रूप्यों में

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1) मकानों से लाइसेंस शुल्क	24,06,419	23,24,998
2) अतिथि गृह से किराया	28,84,047	23,46,659
3) दूकानों, डाकघर, बैंक आदि से किराया	56,06,751	41,64,605
4) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	15,20,502	—
5) प्रायोजित योजनाओं से आय	—	—
6) वाहनों के उपयोग के लिए प्रभार	—	—
7) जल और बिजली प्रभार	—	—
8) परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान — परिचय पत्र खोना	—	—
9) के.स.स्वा.यो. वसूलियां	—	—
10) विविध आय (अनुपयोगी/खाली भंडारों, रद्दी कागज, निविदा कागज, प्रवेश पुस्तिका की बिक्री की कार्यवाही, जुर्माना और दण्ड, अन्य विविध आय)	23,95,281	75,54,051
योग	1,48,12,999	1,63,90,313

Self —  
सहायक वित्त अधिकारी

Self —  
उप वित्त अधिकारी

Self —  
वित्त अधिकारी

अनुसूची-14 : पूर्व अवधि की आय

राशि रूपयों में

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
पूर्व अवधि की आय	14,82,301	—
योग	14,82,301	—

Sd/-  
सहायक वित्त अधिकारी

Sd/-  
उप वित्त अधिकारी

Sd/-  
वित्त अधिकारी



अनुसूची-15 : स्थापना व्यय

राशि रूप्यों में

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजनागत	योजनेतर	योग	योजनागत	योजनेतर	योग
क. वेतन, मजदूरी और भत्ते	55,73,055	39,93,61,475	40,49,34,530	31,40,953	36,02,34,254	36,33,75,207
ख. भविष्य निधि में अंशदान	—	36,95,931	36,95,931	—	28,41,630	28,41,630
ग. अन्य निधियों में अंशदान (नई पेंशन योजना)	—	5,38,144	5,38,144	—	5,09,871	5,09,871
घ. बोनस	—	29,61,392	29,61,392	—	29,59,270	29,59,270
च. स्टाफ कल्याणकारी व्यय	—	1,00,759	1,00,759	—	95,227	95,227
छ. कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवात हितलभ (पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण)	—	8,29,08,802	8,29,08,802	—	6,61,88,601	6,61,88,601
ज. शुल्क और गानदेय	—	—	—	—	3,22,831	3,22,831
झ. छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	—	1,12,787	1,12,787	—	—	—
ट. अन्य	—	—	—	—	—	—
कुल योग	55,73,055	48,96,79,290	49,52,52,345	31,40,953	43,31,51,684	43,62,92,637
घटा - पूर्व अवधि के व्यय	2,58,822	3,50,73,958	3,53,32,780	—	—	—
योग	53,14,233	45,46,05,332	45,99,19,565	31,40,953	43,31,51,684	43,62,92,637

Sd/-  
सहायक वित्त अधिकारी

Sd/-  
उप वित्त अधिकारी

Sd/-  
वित्त अधिकारी

अनुसूची-16 : शैक्षिक व्यय

राशि रूपयों में

विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजनागत	योजनेतर	योग	योजनागत	योजनेतर	योग
1. कौमिकल और ग्लासवेयर	—	16,95,993	16,95,993	—	53,76,728	53,76,728
2. कंप्यूटर किराया प्रभार	—	—	—	—	—	—
3. प्रवेश व्यय	—	8,58,815	8,58,815	—	—	—
4. पशुगृह व्यय	8,874	3,07,999	3,14,873	—	7,02,791	7,02,791
5. शव संग्रह और परिरक्षण	—	—	—	—	—	—
6. परीक्षा व्यय	20,18,217	1,08,46,069	1,28,64,286	14,10,595	1,12,51,19	1,26,61,814
7. छात्रों को वजीफा	6,93,498	45,32,503	52,26,001	7,92,334	29,93,176	37,85,510
8. छात्र कल्याणकारी व्यय	1,76,551	47,06,870	48,83,221	—	30,70,834	30,70,834
9. शिक्षण सामग्री	97,082	15,76,052	16,73,134	—	24,16,665	24,16,665
10. दीक्षांत समारोह	1,04,165	1,63,431	2,67,596	—	—	—
11. अतिथि शिक्षकों को मानदेय	86,940	22,41,080	23,28,020	—	4,24,598	4,24,598
12. र.त्र-पत्रिकाएं	—	79,320	79,320	—	—	—
13. क्षेत्रीय कार्य/अध्ययन भ्रमण	3,86,137	8,46,700	12,32,837	—	—	—
14. अन्य प्रयोगशाला व्यय	60,36,155	12,80,548	73,16,701	1,93,87,707	21,72,767	2,15,60,474
15. प्रतिभागियों को भोजन और आवास	13,33,986	—	13,33,986	—	—	—
कुल योग	1,09,39,585	2,89,35,178	3,98,74,763	2,15,90,636	2,84,08,578	4,99,99,214
घटा - पूर्व अवधि के व्यय	17,73,260	17,76,053	35,49,313	—	—	—
योग	91,66,325	2,71,59,125	3,63,25,450	2,15,90,636	2,84,08,578	4,99,99,214

Sd/-  
सहायक वित्त/अधिकारी

Sd/-  
उप वित्त अधिकारी

Sd/-  
वित्त अधिकारी

राशि रूप्यों में

विवरण	चाज़ू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजनागत	योजनेतर	योग	योजनागत	योजनेतर	योग
क. संरचनागत						
i) किराया, दरें और कर	—	4,12,10,995	4,12,10,995	—	25,760	25,760
ii) बिजली प्रभार	—	5,83,71,872	5,83,71,872	—	5,74,95,433	5,74,95,433
iii) जल प्रभार	—	59,73,406	59,73,406	—	73,69,219	73,69,219
iv) सुल्हा प्रभार	—	1,15,21,969	1,15,21,969	—	98,16,218	98,16,218
v) वाहन परिचालन व्यय	—	3,98,153	3,98,153	—	4,81,408	4,81,408
vi) बीमा	6,179	15,968	22,147	—	1,080	1,080
vii) मेस स्टाफ	—	14,38,235	14,38,235	—	—	—
ख. संचार						
i) डाक और तार	55,661	26,67,508	27,23,169	—	69,24,591	69,24,591
ii) टेलीफोन और फैक्स	14,27,192	44,82,714	59,09,906	—	—	—
ग. शैक्षिक संस्थाओं को अभिदान	68,588	1,71,157	2,39,725	—	1,78,668	1,78,668
घ. समितियों के सदस्यों का यात्रा भत्ता	2,14,457	18,05,926	20,20,383	—	26,10,482	26,10,482
च. विज्ञापन और प्रचार	30,053	29,53,060	29,83,113	—	12,35,461	12,35,461
छ. विधिक व्यय	—	10,07,738	10,07,738	—	2,22,175	2,22,175
ज. अन्य	—	—	—	—	—	—
i) छपाई और लेखन सामग्री (उपयोग)	2,26,980	33,92,962	36,19,942	—	29,27,193	29,27,193
ii) पत्र और पत्रिकाएँ	30,952	7,87,875	8,18,827	—	4,73,658	4,73,658
iii) यात्रा और वाहन (घरेलू)	14,112	12,02,769	12,16,881	—	—	—
vi) यात्रा -- विदेश	—	—	—	—	—	—
v) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	—	—	—	—	—	—
vi) अतिथि व्यय	1,01,769	16,07,953	17,09,722	—	10,40,654	10,40,654
vii) बैंक प्रभार	90,458	1,34,567	2,25,025	—	—	—
viii) बैठक व्यय	1,14,811	6,295	1,21,106	—	—	—
ix) विषय निर्वाचन और अनुवीक्षण	—	3,80,166	3,80,166	—	—	—
x) समिति व्यय-सदस्यों को यात्रा भत्ता	—	—	—	—	—	—
xi) श्रम प्रभार, दैनिक मजदूरी और अनुबंध श्रम	2,88,266	98,22,309	1,01,10,575	—	—	—
xii) गैर सरकारी यात्रा भत्ता	14,29,936	1,09,124	15,39,060	—	—	—
xiii) पलायी, सीडी आदि	10,489	28,486	38,975	—	—	—
xiv) स्थानीय गन्ना खर्च	56,491	8,47,274	9,03,765	—	—	—
xv) वार्षिक दिवस समारोह	—	4,48,924	4,48,924	—	—	—
xvi) वरदिया	—	20,17,976	20,17,976	—	—	—
xvii) मानदेय	—	35,770	35,770	—	—	—
xviii) अन्य विविध प्रशासनिक व्यय	2,76,716	17,37,997	20,14,713	—	31,25,507	31,25,507
कुल योग	44,43,090	15,45,85,148	15,90,28,238	—	9,39,27,507	9,39,27,507
घटा - पूर्व अवधि के व्यय	1,21,693	72,18,517	73,38,210	—	—	—
योग	43,21,397	14,73,66,631	15,16,90,028	—	9,39,27,507	9,39,27,507

Sof/-  
सहायक वित्त अधिकारीSof/-  
उप वित्त अधिकारीSof/-  
वित्त अधिकारी

## अनुसूची-18 : मरम्मत और अनुरक्षण

राशि रूपयों में

विवरण	बालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजनागत	योजनेतर	योग	योजनागत	योजनेतर	योग
क. सफाई सामग्री और सेवाएं	1,40,015	29,48,049	30,88,064	—	32,39,808	32,39,808
ख. अग्निरोधी पद्धतियां	—	—	—	—	—	—
ग. बागवानी	4,365	3,54,134	3,58,499	—	—	—
घ. भवनों का अनुरक्षण	7,94,008	2,01,91,130	2,09,85,138	—	76,84,026	76,84,026
च. सड़कों का अनुरक्षण	—	—	—	—	1,05,85,272	1,05,85,272
छ. कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण	3,41,756	41,17,803	44,59,559	33,054	2,64,134	2,97,188
ज. कंप्यूटरों का अनुरक्षण	76,832	10,55,553	11,34,385	—	62,477	62,477
झ. वाहनों का अनुरक्षण	19,560	2,61,499	3,01,059	—	8,98,118	8,98,118
ट. फर्नीचर और स्थापना	38,327	9,52,315	9,90,642	—	3,26,884	3,26,884
ठ. पुस्तक जिल्दसाजी प्रभार	—	50,848	50,848	—	41,693	41,693
कुल योग	14,18,863	2,99,51,330	3,13,68,193	33,054	2,31,02,412	2,31,35,466
घटा - पूर्व अवधि के व्यय	1,05,491	12,15,577	13,21,068	—	—	—
योग	13,11,372	2,87,35,753	3,00,47,125	33,054	2,31,02,412	2,31,35,466

नोट : वार्षिक अनुरक्षण अनुबंधों पर खर्च शामिल है।

Sd/-

सहायक वित्त अधिकारी

Sd/-

उप वित्त अधिकारी

Sd/-

वित्त अधिकारी

अनुसूची-19 : विविध व्यय

राशि रूप्यों में

विवरण	बालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
	योजनागत	योजनेतर	योग	योजनागत	योजनेतर	योग
1. 1975-76 से स्थायी परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत बढा खाते में डाले गए उपकरण और संयंत्र	-	1,04,351	1,04,351	-	-	-
2. पूर्व वर्षों में स्थायी परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत बढा खाते में डाले गए राजस्व व्यय	-	49,784	49,784	-	-	-
योग	-	1,54,115	1,54,115	-	-	-

Sd/-  
सहायक वित्त अधिकारीSd/-  
उप वित्त अधिकारीSd/-  
वित्त अधिकारी

अनुसूची-20 : पूर्व अवधि के व्यय

राशि रूप्यों में

विवरण	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1. योजनेतर अनुदान का अप्रयुक्त भाग— अग्रानीत	—	13,75,17,642	—	—
2. स्थापना व्यय	2,58,822	3,50,73,958	—	—
3. शैक्षिक व्यय	17,73,260	17,76,053	—	—
4. प्रशासनिक व्यय	1,21,693	72,16,517	—	—
5. मरम्मत और अनुक्षण व्यय	1,05,491	12,15,577	—	—
योग	22,59,266	18,27,99,747	—	—

Sd/-  
सहायक वित्त अधिकारी

Sd/-  
उप वित्त अधिकारी

Sd/-  
वित्त अधिकारी

### 31. मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची : 21\*

#### विशिष्ट लेखांकन नीतियां

#### 1. लेखाओं को तैयार करने का आधार

ये खाते, जबतक कुछ कहा न जाए, वास्तविक लागत परिपाटी के अन्तर्गत तैयार किए जाते हैं, और सामान्यतः प्रोदभूत लेखांकन पद्धति पर आधारित हैं।

#### 2. राजस्व पहचान

2.1 छात्रों से प्राप्त फीस, प्रवेश पत्रों की बिक्री, बचत खाता पर ब्याज लेखा नकद आधार पर रखा जाता है।

2.2 भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति से आय तथा निवेशों पर ब्याज का लेखा प्रोदभूत आधार रखा जाता है।

2.3 स्टाफ सदस्यों को दिए जाने वाले ब्याज पर अग्रिम - गृह निर्माण अग्रिम, वाहन तथा कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम पर ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष प्रोदभूत आधार पर की जाती है, यद्यपि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण भुगतान के बाद शुरू की जाती है।

#### 3. स्थायी परिसम्पत्तियां और मूल्यहास

3.1 स्थायी सम्पत्तियों को अधिग्रहण लागत, जिसमें आवक-भाड़ा, शुल्क और कर तथा परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, स्थापना से सम्बन्धित प्रासंगिक व प्रत्यक्ष खर्च शामिल करके बताया जाता है।

3.2 स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, उनकी लागत में से संचित मूल्यहास कम करके लागत पर किया जाता है। स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास की दर सरल रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध करायी जाती है :

1. भूमि	0%
2. स्थल विकास	0%
3. भवन	2%
4. सड़कें और सेतु	2%
5. नलकूप और पानी की आपूर्ति	2%
6. सीवर और जल निकासी	2%
7. विद्युत व्यवस्था तथा उपकरण	5%
8. प्लांट और मशीन	5%
9. वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8%
10. कार्यालय उपस्कर	7.5%
11. दृश्य-श्रव्य उपकरण	7.5%
12. कंप्यूटर और पेरिफेरल	20%
13. फर्नीचर, फिक्चर और फिटिंग	7.5%
14. वाहन	10%
15. पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	10%
16. अन्य	10%

3.3 वर्ष के दौरान हुए परिवर्धनों पर पूर्ण मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है।

3.4 जहां किसी परिसम्पत्ति का पूर्ण मूल्यहास हो जाता है तो उस परिसम्पत्ति को तुलन-पत्र में रू 1 के अवशिष्ट मूल्य पर लाया जाता है और इस पर आगे मूल्यहास नहीं होगा।

3.5 उद्दिष्ट निधि में से सृजित की गई परिसम्पत्तियों, जहां इन परिसम्पत्तियों का मालिकाना हक विश्वविद्यालय से जुड़ा होता है, को पूंजी निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। सम्बन्धित परिसम्पत्तियों पर लागू दर से मूल्यहास प्रभावित किया जाता है।



4. स्टाक : रसायनों, ग्लासवेयर, प्रकाशनों, लेखन-सामग्री और अन्य स्टोर की खरीद पर खर्च राशि की गणना राजस्व खर्च के रूप में की जाती है।

5. सेवानिवृत्त लाभ  
सेवानिवृत्त लाभ यानी पेंशन, उपदान और छुट्टी-नकदीकरण का लेखा नकद आधार पर रखा जाता है। जिस कर्मचारी का विश्वविद्यालय में आमेलन हो जाता है उस कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान के पूंजीकृत मूल्य को सम्बंधित खातों में क्रेडिट कर दिया जाता है।

6. निवेश

सभी निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

7. कार्पस निधि की स्थापना वर्ष 1996-97 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समान अंशदान, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/सम्बद्धा शुल्क, परामर्श शुल्क में विश्वविद्यालय का हिस्सा, परियोजनाओं से वसूल ऊपरी प्रभार और प्रायोजित परियोजना निधि से अर्जित ब्याज को कार्पस निधि के परिवर्धनों के रूप में माना जाता है।

निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी नियमों के आधार पर कार्पस निधि का उपयोग राजस्व और पूंजीगत दोनों खर्चों के लिए किया जाता है। कार्पस निधि में से सृजित परिसम्पत्तियों को पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। कार्पस निधि में से अग्रणीत किए गए शेष को अलग बैंक खाते में शेष, बैंक में आवधिक जमा के रूप में निवेश और वर्तमान परिसम्पत्तियों में शामिल निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज के द्वारा दर्शाया जाता है।

8. निम्नलिखित दीर्घकालिक निधियों को विशेष उद्देश्यों के लिए उद्दिष्ट किया जाता है। प्रत्येक निधि का अलग से बैंक खाता होता है। जिन खातों में अत्यधिक शेष होते हैं उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और बांड तथा बैंक में सावधिक जमा के रूप में निवेश कर दिया जाता है। निवेशों/अग्रिमों (गृहनिर्माण और वाहन अग्रिम) से प्रोद्भूत आधार पर प्राप्त आय और वचत बैंक खातों पर ब्याज की राशि को सम्बन्धित निधियों में क्रेडिट कर दिया जाता है। खर्च एवं अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन अग्रिम निधियों के मामले में) को निधि में डेबिट कर दिया जाता है। शेष को अग्रणीत कर दिया जाता है और परिसम्पत्तियों के स्तम्भ में बैंक में शेष, निवेश और प्रोद्भूत ब्याज (वर्तमान परिसम्पत्तियों) के द्वारा दर्शाया जाता है।

वृत्तिदान, ऐसी निधियां है जो डोनर द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर चेंबर स्थापित करने, मंडल और पुरस्कार प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यासों और अन्य संगठनों से प्राप्त होती है। प्रत्येक वृत्तिदान निधि का अपना अलग से निवेश होता है सभी वृत्तिदान निधियों के लिए एक ही बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि इनके अनिवेशित शेष नगण्य है।

प्रत्येक वृत्तिदान निधि के निवेश से प्रोद्भूत आधार पर प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। बचत बैंक खाता पर प्राप्त ब्याज को सभी वृत्तिदान निधियों में वर्ष के अन्त में अन्त शेषों के अनुपात के अनुसार बांट दिया जाता है। चेंबर, पदक और पुरस्कारों पर खर्च राशि को सम्बन्धित वृत्तिदान निधियों में डेबिट कर दिया जाता है और शेष को अग्रणीत कर दिया जाता है। शेष को आवधिक जमा में निवेश, प्राप्त ब्याज (वर्तमान परिसम्पत्तियों) और सभी वृत्तिदानों के लिए समान बचत बैंक खाता में कुल शेष के द्वारा दर्शाया जाता है।

#### 8.1 गृह निर्माण अग्रिम निधि

यह निधि गृह निर्माण के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिम के लिए एक परिक्रामी निधि है।

#### 8.2 वाहन निधि

यह निधि कार, स्कूटर और कंप्यूटर की खरीद के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिम के लिए एक परिक्रामी निधि है।

#### 8.3 एरिज़न बैंक पुस्तकालय निधि

यह निधि एरिज़न बैंक द्वारा इसके नाम पर पुस्तकालय का निर्माण करने और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं की खरीद के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

#### 8.4 वि.अ.आ./जे.आर.एफ. निधि

यह निधि कनिष्ठ शोधार्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

#### 8.5 निष्पान फाउंडेशन निधि

यह निधि निष्पान फाउंडेशन द्वारा यू.एस. डालर में उपलब्ध कराई गई है और इसका निवेश भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन में आवधिक जमा के रूप में किया गया है। इस आवधिक जमा से प्राप्त ब्याज का उपयोग सामाजिक विज्ञान और मानविकी क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है।

#### 8.6 अनुवर्शिकी इंजीनियरी यूनिट निधि - परिचालन नहीं - बंद हो रहा है।

#### 8.7 अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी केंद्र निधि

यह निधि मानव जिनोमिक्स और सम्बद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध कार्यक्रम चलाने और राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्ध व हिस्सेदारी स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

8.8 विज्ञान नीति में विशेष कार्यक्रम

इस निधि की स्थापना विज्ञान नीति में विशेष कार्यक्रम के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान नीति अध्ययन केंद्र के शिक्षण, प्रशिक्षण और सीमान्त क्षेत्रों में शोध कार्य तथा केंद्र के संकाय के साथ-साथ आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल देते हुए केंद्र की गतिविधियों में विस्तार करना था।

8.9 भारतीय स्टेट बैंक अनुसंधान एवं विकास खाता

यह निधि वित्तीय परिवर्तनों पर भविष्यवाणी हेतु शोध करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

8.10 वृत्तिदान निधि9. सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान

- 9.1 सरकारी अनुदानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदानों का लेखा नकदीकरण के आधार पर बनाया जाता है।
- 9.2 पूंजीगत खर्चों के लिए उपयोग की गई सरकारी अनुदान राशि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि को पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।
- 9.3 राजस्व खर्च के लिए सरकारी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि, जहाँ तक उपयोग किया गया है, को उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष में अनुदान का नकदीकरण हुआ है।
- 9.4 अप्रयुक्त अनुदानों (इन अनुदानों में से दिए गए अग्रिमों सहित) को अग्रेनीत कर दिया जाता है और तुलन पत्र में दायित्व के रूप में दर्शाया जाता है।

10. उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों का निवेश और इन निवेशों पर व्याज के रूप में प्राप्त आय

इन निधियों में उपलब्ध राशि, जो खर्च के लिए तुरन्त अपेक्षित नहीं है, को अनुमोदित प्रतिभूतियों और बांड या बैंक में आवधिक जमा के रूप में निवेश किया जाता है, इसमें बचत बैंक खाता के शेष को छोड़ दिया जाता है।

इन निवेशों पर प्राप्त व्याज, देय अर्जित व्याज और अदेय अर्जित व्याज को सम्बन्धित निधियों में जमा कर दिया जाता है और, उसे विश्वविद्यालय की आय के रूप में नहीं माना जाता है।

# 11. प्रायोजित परियोजनाएं

- 11.1 चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रायोजकों से प्राप्त राशि को "वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान - वर्तमान दायित्व - अन्य दायित्व - चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्तियां" शीर्ष में क्रेडिट कर दिया जाता है। इन परियोजनाओं की राशि में से जब कभी खर्च किया जाता है/अग्रिम का भुगतान किया जाता है या सम्बन्धित परियोजना खाने को निर्धारित ऊपरी शीर्ष प्रभार के साथ डेबिट किया जाता है तो दायित्व खाता को डेबिट कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के निर्णय के अनुसार परियोजनाओं से वसूल किए गए ऊपरी शीर्ष प्रभारों को कार्पस निधि में क्रेडिट कर दिया जाता है।
- 11.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के लिए वित्तपोषित उद्दिष्ट निधि के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों द्वारा भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रायोजित की जाती हैं। ऐसे खर्च जो सामान्यतः अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के सवितरण पर होते हैं, जिनमें शोधार्थी और छात्र द्वारा आकस्मिक खर्च शामिल है, को छोड़ कर इनका लेखा भी प्रायोजित परियोजना की तरह ही रखा जाता है।
- 11.3 विश्वविद्यालय भी अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, जिनका लेखा विश्वविद्यालय के शैक्षिक खर्च के रूप में रखा जाता है।
- 11.4 प्रायोजित परियोजनाओं के अल्पकालिक निवेश पर अर्जित ब्याज को कार्पस निधि में क्रेडिट कर दिया जाता है।

## 12 आय कर

आय कर अधिनियम की धारा 10(23 सी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की आय को आय कर से मुक्त रखा गया है। अतः खातों में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

सहायक वित्त अधिकारी

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची : 22

आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं से संबंधित टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ

- 1.1 31.3.2005 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों द्वारा जेएनयू के विरुद्ध दर्ज किए गए 20 मुकदमों विभिन्न न्यायालयों में निर्णयों के लिए लम्बित पड़े थे। ये मुकदमे स्थापना से सम्बन्धित थे यानी पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान, निलम्बन आदि। इन दावों की राशि का पता नहीं लग सका।
- 1.2 जेएनयू की ओर से बैंक द्वारा साख-पत्र खोला गया और 31.3.05 को रू 16,05,120 बकाया थे।

2. पूंजीगत वचनबद्धता

पूंजीगत खाते पर पूरे किए जाने वाले शेष ठेकों की लागत और 31.3.05 को उपलब्ध नहीं कराए गए अग्रिमों की निवल राशि रू. 8,15,50,000 थी।

3. स्थायी परिसम्पत्तियाँ

- 3.1 अनुसूची 5 की स्थायी परिसम्पत्तियों में 2004-2005 के दौरान एगजिम बैंक पुस्तकालय निधि (उद्दिष्ट निधि) में से खरीदी गई रू. 2,04,273 के मूल्य की पुस्तकालय पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ शामिल हैं, क्योंकि इस निधि में सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्वामित्व जेएनयू के नाम है। यह परिसम्पत्ति पूंजी-निधि में क्रेडिट करके स्थापित की गई है।
- 3.2 वर्ष 1983-84 में रू. 87,05,139 की लागत से किए गए केंद्रीय विद्यालय भवन का स्वामित्व संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास है। इस भवन की लागत का वहन समान रूप से तीनों संस्थानों द्वारा किया गया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से उनके हिस्से के रूप में रू. 61,66,000 प्राप्त हुए थे। यद्यपि वर्ष 2003-2004 तक के खातों में इन दोनों संस्थानों से प्राप्त राशि को पूंजी निधि में क्रेडिट करते हुए भवन की कुल लागत को जेएनयू के स्वामित्व की एक परिसम्पत्ति के रूप में दर्शाया गया था। वर्ष 2004-05 के खातों में स्थायी परिसम्पत्तियों के भाग के रूप में इस भवन के केवल एक तिहाई स्वामित्व को दर्शाने के लिए पूंजीगत खाते में डेबिट करके इस त्रुटि का सुधार कर लिया गया।

3.3 31.3.2004 को तुलन पत्र में दर्शाए गए रु. 4,63,110 की लागत के भारतीय स्टेट बैंक भवन का निर्माण कार्य नहीं किया गया। अग्रिम के रूप में को.लो.नि.विभाग को रु. 4,00,000 और रु. 63,110 का भुगतान आर्किटेक्ट को किया। अग्रिम का समायोजन के बाद रु. 1,35,118 के शेष को राशि की स्थिति सम्बन्धी निर्णय को लम्बित रखते हुए अग्रणीत कर दिया गया।

3.4 31.3.2004 के तुलन पत्र और पूर्व वर्षों के तुलन पत्रों में योजनागत निधियों में से सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों और योजनागत निधियों से सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों को अलग-अलग नहीं दर्शाया गया था। वर्ष 2004-2005 के दौरान योजनागत और योजनागत निधियों से किए गए परिवर्धनों और उन पर मूल्यहास को क्रमशः स्थायी परिसम्पत्तियों की मुख्य अनुसूची (अनुसूची-5) की उप अनुसूची 5ए में अलग-अलग से दर्शाया गया है।

#### 4 मूल्यहास

गत अवधि में स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। नकद लेखांकन पद्धति से प्रोद्भूत लेखांकन पद्धति में परिवर्तन के साथ पहली बार वर्ष 2004-2005 के लेखाओं में 31 मार्च 2004 तक के पिछले सभी वर्षों के लिए पूंजीगत निधि को डेबिट करते हुए मूल्यहास उपलब्ध कराया गया है। सभी पूर्व वर्षों के लिए मूल्यहास की मात्रा का निर्धारण करने के उद्देश्य से लेखांकन नीतियों में अनुबद्ध दरों के अनुसार पिछले प्रत्येक दस वर्षों के लिए नियमानुसार मूल्यहास की गणना की गई है और वर्ष 1993-94 सहित सभी वर्षों को कवर करने के लिए तदर्थ दरों पर गणना की गई है। अपनाई गई तदर्थ दरें निम्न प्रकार से थीं :

1. भूमि	0%
2. स्थल विकास	0%
3. भवन	10%
4. सड़कें और सेतु	10%
5. नलकूप और पानी की आपूर्ति	10%
6. सीवर और जल निकासी	10%
7. विद्युत व्यवस्था तथा उपकरण	25%
8. प्लांट और मशीन	25%
9. वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	40%
10. कार्यालय उपस्कर	37.5%
11. दूरय-श्रय उपकरण	37.5%

- |   |       |
|---|-------|
| 12. कंप्यूटर और परिफेरल                       | 50%   |
| 13. फर्नीचर, फिक्चर और फिटिंग                 | 37.5% |
| 14. वाहन                                      | 50%   |
| 15. पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं | 50%   |
| 16. अन्य                                      | 50%   |
- वर्ष 2004-05 के लिए मूल्यहास उपलब्ध कराया गया और आय और व्यय खाते डेबिट लिया गया।

#### 5. उद्दिष्ट निधियाँ - निम्नान फाउंडेशन निधि

जुलाई 2003 से विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन में रखे गए एक मिलियन यू.एस. डालर के समतुल्य रुपयों में राशि को वर्ष 2004-2005 के लेखाओं की बहियों में लाया गया है और इसका लेखा उद्दिष्ट निधि के रूप में रखा गया है (अनुसूची 3)

#### 6क. योजनेतर अनुदान

लेखांकन की नकद पद्धति के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 के लेखाओं में रु. 13,96,65,779 तक के योजनेतर अनुदानों को बैंक श्रेण के रूप में अग्रणीत किया गया है और अग्रियों को आय के रूप में माना गया है। इस राशि को पूर्व अवधि के खर्चों में डेबिट करते हुए वर्ष 2004-05 के लेखाओं में योजनेतर अनुदान के अथशेष के रूप में लाया गया है।

#### 6ख. वेतन

चूंकि प्रोद्भूत लेखांकन पद्धति में परिवर्तन का यह पहला वर्ष है, अतः वर्ष 2004-2005 में 13 महीनों के वेतन के खर्च का लेखा रखा गया है। मार्च 2004 के वेतन, जिसका भुगतान अप्रैल 2004 में हुआ है, को पूर्व अवधि के खर्च के रूप में वर्गीकृत किया गया है और मार्च 2005 के वेतन को वर्ष 2004-05 के लेखाओं में बकाया दायित्व के रूप में लिया गया है।

#### 7. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

प्रबन्धन के मतानुसार वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रियों का सामान्य तौर पर नकदीकरण करने पर एक मूल्य होता है जो कि कम से कम तुलन पत्र में दर्शाए गए औसतन मूल्य के बराबर होता है।

8. बचत बैंक खाता और बैंक में आवधिक जमा खातों में शेषों का विवरण संलग्नक 'ए' में दिया गया है।
9. पूर्व वर्षों के आंकड़ों को यथावश्यक दुबारा से ग्रुपबद्ध किया गया है।
10. अंतिम खातों में आंकड़ों को करीबी रूप्यों में राउंड आफ किया है।
11. अनुसूची 1 से 21 संलग्न है और यह 31 मार्च 2005 के तुलनपत्र और इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय लेखा के एक अभिन्न भाग के रूप में है।
12. चूंकि भविष्य निधि खाता और नयी पेंशन योजना में सदस्यों की ही निधि होती है, न कि विश्वविद्यालय की। अतः इन खातों को वर्ष 2004-2005 में विश्वविद्यालय के खातों से अलग किया गया है। यद्यपि प्राप्ति और अदायगी खाता, आय और व्यय खाता (प्रोद्भूत आधार पर) और भविष्य निधि खाता के साथ-साथ नई पेंशन योजना खाता के तुलन पत्र को विश्वविद्यालय के लेखाओं के साथ संलग्न किया गया है।

*Sg/-*  
सहायक वित्त अधिकारी

*Sg/-*  
उप वित्त अधिकारी

*Sg/-*  
वित्त अधिकारी



**जम्मू-कश्मीर-नेहरू विश्वविद्यालय**  
31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. अथ शेष			I. व्यय		
क. हाथ रोकड़	1,10,775	1,05,801	ख. स्थापना	12,47,58,501	43,62,92,637
ख. बैंक रोकड़	-	-	ग. प्रशासनिक	15,53,00,128	9,39,27,507
ग. चालू खाते में	17,45,31,360	-	घ. शैक्षिक	3,79,84,419	4,99,99,215
द. जमा खाते में	43,83,31,153	-	च. मरम्मत और अनुरक्षण	2,80,69,072	2,31,35,466
इ. बचत खाते में	68,72,80,829	40,49,82,385	छ. विविध	-	41,095
फ. भविष्य निधि खाते में	-	46,82,934	II. उद्दिष्ट वृत्तिदान निधि के लिए अदायगी	5,83,99,583	53,00,704
ग. प्राप्त अनुदान	4,94,85,147	71,68,57,155	III. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि की अदायगियां	9,60,02,780	11,38,04,724
घ. दान और अंश दान	4,92,61,777	3,90,75,188	IV. विभिन्न अध्येतावृत्तियों के लिए निधि की अदायगियां	4,03,04,778	-
च. शैक्षिक प्राप्ति	12,01,53,270	1,18,49,582	V. निवेश और जमा	6,29,07,533	63,48,324
छ. उद्दिष्ट निधि/वृत्तिदान	5,03,87,374	12,14,98,508	क. उद्दिष्ट, वृत्तिदान और कार्पस निधि में से स्वयं की निधि में से	-	9,71,43,757
ज. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्राप्ति	1,02,58,209	-	ख. स्थायी परिसम्पत्तियों और पूंजीगत कार्य (चल रहे) पर खर्च	6,91,81,207	4,91,41,814
घ. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों/ छात्रवृत्तियों के लिए प्राप्ति	98,89,577	-	ग. स्थायी परिसम्पत्तियां	80,20,260	4,26,99,940
ड. निवेश से आय	44,32,223	68,12,325	घ. चल रहे पूंजीगत कार्य पर खर्च	31,33,84,172	-
क. उद्दिष्ट निधि/अध्येतावृत्ति निधि से	-	79,98,495	च. वेतन से संबंधित अदायगियां	1,65,12,365	3,80,41,311
ख. स्वयं की निधियों से	-	-	ज. सांविधिक अदायगियां सहित अन्य अदायगियां	12,17,849	-
ग. अर्जित व्याज	1,38,43,600	-	घ. कार्पस निधि	-	31,52,82,557
घ. बैंक जमा पर	23,757,424	63,81,102	च. भविष्य निधि	13,20,41,983	3,81,37,166
च. बचत बैंक खाता पर	45,207,373	63,69,687	ज. जमा और अग्रिम	2,70,368	1,10,775
ज. ऋण और अग्रिम पर	-	4,06,61,906	ख. अन्त शेष	-	-
घ. जमा और अग्रिम	-	1,63,90,313	ग. हाथ रोकड़	-	-
ज. अन्य आय	2,37,44,834	-	घ. बैंक शेष	21,44,31,360	-
ख. सांविधिक प्राप्ति सहित विविध प्राप्ति	53,275,000	53,275,000	च. चालू खाते में	34,18,48,568	43,83,31,152
ग. कार्पस निधि	31,04,30,029	31,04,30,029	ज. जमा खाते में	-	-
घ. निवेश	-	-	घ. बचत खाते में	-	-
ज. भविष्य निधि	-	-	च. भविष्य निधि में	-	58,40,406
योग	1,70,06,14,925	1,75,35,78,370	योग	1,70,06,14,925	1,75,35,78,370

सहायक वित्त अधिकारी

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

समाप्त

## भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2005 को तुलन-पत्र

विवरण	31.03.2005	31.03.2004	विवरण	31.03.2005	31.03.2004
सामान्य भविष्य निधि			निवेश		
अथ शेष	45,92,93,802	40,70,85,918		62,58,97,123	57,74,85,205
जमा - अंशदान	8,94,91,747	8,52,94,560	ब्याज मिला लेकिन देय नहीं	14,94,542	-
जमा - क्रेडिट किया गया ब्याज	4,28,78,771	4,11,37,511	रोकड़ और बैंक शेष	73,27,975	53,40,406
घटा - अग्रिम	59,16,64,320	53,35,17,985			
निकासी और अंतिम अदायगी	9,26,46,325	7,42,24,187			
	49,90,17,995	45,92,93,802			
अंशदायी भविष्य निधि					
अथ शेष	10,38,67,552	9,09,59,912			
जमा - अंशदान	97,66,269	94,46,751			
विश्वविद्यालय का अंश	43,12,465	33,37,642			
जमा - क्रेडिट किया गया ब्याज	67,23,718	65,10,861			
विश्वविद्यालय अंश पर ब्याज	26,01,681	24,14,192			
घटा - अग्रिम	12,72,71,685	11,26,69,358			
निकासी और अंतिम अदायगी	1,34,11,330	88,01,806			
	11,38,60,355	10,38,67,552			
रिजर्व ब्याज					
अथ शेष	2,01,64,256	2,25,46,568			
जमा - आय की अधिकता/	16,76,932	23,82,311			
घटा - खर्च की अधिकता	2,18,41,188	2,01,64,257			
	63,47,19,538	58,33,25,611			
	63,47,19,540	58,33,25,611			

सहायक वित्त अधिकारी

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय  
नई पेंशन योजना खाता

31 मार्च, 2005 को तुलन-पत्र

विवरण	31.03.2005	विवरण	राशि रुपये में 31.03.2005
स्वयं का अंशदान	5,29,391	मार्च के लिए स्वयं के अंशदान के लिए विश्वविद्यालय से वसूल की जाने वाली राशि	1,12,672
विश्वविद्यालय अंशदान	5,29,391	मार्च के लिए विश्वविद्यालय अंशदान के लिए विश्वविद्यालय से वसूल की जाने वाली राशि	1,12,672
जनवरी और मार्च के लिए स्वयं के अंशदान के लिए विश्वविद्यालय से वसूली गई अधिक राशि	15,571	मार्च के लिए स्वयं के अंशदान के लिए विश्वविद्यालय से वसूल की गई अधिक राशि	8,854
आय और व्यय खाता से अतिशेष	8,753	बैंक खाता शेष	8,48,908
	10,83,106		10,83,106
* स्वयं के अंशदान और विश्वविद्यालय के अंशदान में अन्तर वेतन से वसूल की गई अधिक राशि है			
जनवरी	8,769	लक्ष्मी देवी को तापस की गई राशि	2,052
मार्च	8,854	वापस की जाने वाली शेष राशि और अन्तर की राशि	15,571
	17,623		17,623

सहायक वित्त अधिकारी

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

**लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र**

मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, के 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च 2005 के तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा अभियुक्तियां अंतर्विष्ट हैं, जिसमें से अधिकांश कई वर्षों से निरंतर बनी हुई हैं:

- 17.95 करोड़ रुपये के प्रायोजित परियोजनाओं की प्राप्तियों को गलत दर्शाना। (पैरा 2.1.1)
- लेखाओं की टिप्पणियों में सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में 15.90 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयताओं को प्रकट नहीं करना। (पैरा 2.1.2)

मैं अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और संगठन की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखे तथा तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का सही एवं उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 17.4.2006

डा. अ. कु. बनर्जी  
महानिदेशक लेखापरीक्षा  
केन्द्रीय राजस्व

## STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 17th November 2006

SBD No. 10/2006-07.—In terms of Section 29 (1) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Patiala and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri A. C. Varma as Managing Director of State Bank of Patiala for a period of two years with effect from the date he assumes charge.

O. P. BHATT  
Chairman

## (PUNJAB NATIONAL BANK)

The 14th November 2006

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 19 the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970)/1980 (4 of 1980), the Board of Directors of Punjab National Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments further to amend the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000, namely :—

1 (1) These regulations may be called the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Amendment Regulation, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2A of the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulation 2000, for sub-regulation (i) the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(i) Except as provided in clause (ii) of regulation 67, the Board may constitute for the purpose of these regulations, as and when necessary, a Committee consisting of

(a) Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director nominated by him;

(b) Two other Directors as the Board may deem fit;

(c) Three officers of the bank to be nominated by the Board not below the rank of Deputy General Manager."

G. B. SINGH  
Dy. Secy.

Note : The Principal regulations were published vide notification dated the 5th June 1999 and subsequently amended vide notification dated 22nd November 2003.

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 7th December 2006

No. N-15/13/7/2/2006-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> September, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely

Sl. No.	Name of the Revenue Village or Municipal Limits	Hobli	Taluk	District
1.	Hulimavu	Uttarahalli	Bangalore South	Bangalore
2.	Alahalli	Uttarahalli	Bangalore South	Bangalore
3.	Kalena Agrahara	Begure	Bangalore South	Bangalore
4.	Gottigere	Uttarahalli	Bangalore South	Bangalore
5.	Kothanur/ Kothanur Dinne	Uttarahalli	Bangalore South	Bangalore

M. SUNDARARAMAN  
Director (P&D)

No. N-15/13/6/2/2006-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> September 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely

"Vamanapuram in Chirayinkeezhu Taluk in Trivandrum District."

M. SUNDARARAMAN  
Director (P&D)

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 4th December 2006

**No.U-16/53/99/Med.III(A.P.)** : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby convey my ex-post facto authorization to the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Hyderabad for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
Dr. K. Sudhakar Rao	5.12.2005 to 4.12.2006	Warangal(A.P.)

*kkaka*  
DR. KAMLESH KALRA  
Medical Commissioner

## RASHTRIYA SAHAKARI VIKAS NIGAM

New Delhi, the 27th November 2006

No.NCDC:1-1/88-Admn. - In exercise of the powers conferred by Regulation 7-A of National Cooperative Development Corporation Service Regulations, 1967, the Board of Management of the Corporation in its meeting held on 24<sup>th</sup> October, 2006 has resolved that :-

- (i) the following amendments be carried out in the Recruitment Rules for the post of Deputy Managing Director:-
  - (a) In Column 7 on "Method of recruitment", the existing provision be substituted by the following :-  
**"50% by Deputation and 50% by Promotion"**
  - (b) In Column 8 on "Requirements in case of promotion/deputation", the following be added under the existing provision for deputation:-  
**"Promotion: Financial Adviser/Executive Director with 5 years service in the grade."**
- (ii) the existing provision relating to promotion in Column 8 on "Requirements in case of promotion/deputation" in the Recruitment Rules for the post of Financial Adviser be substituted by the following :-  
**"Chief Director (Finance) with 5 years service in the grade".**
- (iii) the Recruitment Rules for the post of Chief Director (Finance) be as under :-

Name of the post	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether selection or non-selection	Age limit	For Direct Recruitment Educational and other qualifications	Method of recruitment	Requirement in case of promotion/deputation
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Chief Director (Finance)	A	14300-400-18300/-	Selection	45 years	CA or ICWA with 8 years' post-qualification experience in senior/ executive position concerning Financial Management, Accounting & Allied Areas in Banks, Financial / Developmental Institutions, Govt. / Public Sector Organizations and having experience in operating in a computerized environment	By promotion or by direct recruitment/deputation	<b>Promotion:</b> Director(Finance) with 5 years experience in the grade.  <b>Deputation:</b> Persons working in Central/ State Govt. Depts., public undertakings, autonomous/ statutory bodies, semi govt. institutions, banks and financial/ developmental institutions, govt. companies or cooperative institutions, fulfilling the eligibility criteriae of educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment will be eligible.

2. The above amendments will be effective from 24<sup>th</sup> October, 2006.

P. UMA SHANKAR  
Managing Director

## JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

The Annual Accounts of the Jawaharlal Nehru University for the year 2004-2005 and Audit Certificate thereon are hereby published as required under Sub-Section (2) of the Section-20 of the Jawaharlal Nehru University Act, 1966 (53 of 1966).

REVATHI BEDI  
Finance Officer



**JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY**  
**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2005**

Corpus/Capital Fund and Liabilities		(Amount Rs.)	
Liabilities	Schedule	Current year	Previous Year
Capital Fund	1	78,55,75,652	1,65,14,29,912
Corpus Fund	2	7,58,88,827	5,16,06,143
Earmarked / Endowment Funds	3	23,89,07,166	14,22,40,457
Current Liabilities & Provisions	4	61,97,32,659	39,31,88,993
Total		1,72,01,04,304	2,23,84,65,505
<b>Assets</b>			
Fixed Assets (Net Block)	5	78,22,49,262	1,45,63,54,521
Investments – Earmarked / Endowment Funds	6	20,79,56,888	14,59,91,655
Current Assets, Loans & Advances	7	72,98,98,154	63,61,19,329
Total		1,72,01,04,304	2,23,84,65,505

Significant Accounting Policies

21

Contingent liabilities &amp; Notes to Accounts

22

Asst Finance Officer

Dy. Finance Officer

Finance Officer

## JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

## INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2005

(Amount Rs.)

## A. Income

	Schedule	Current year	Previous Year
Grants in aid / subsidies	8	58,87,68,841	56,95,19,026
Academic receipts	9	4,94,85,147	3,89,18,589
Income from Investments	10		
Income from Royalty, Publications	11	2,65,155	1,56,599
Interest earned	12	1,62,54,097	43,29,020
Other Income	13	1,48,12,999	1,63,90,313
Prior Period Income	14	14,82,301	
<b>Total (A)</b>		<b>67,10,68,540</b>	<b>62,93,13,547</b>

## B. Expenditure

Establishment expenses	15	45,99,19,565	43,62,92,637
Academic expenses	16	3,63,25,450	4,99,99,214
Administrative expenses	17	15,16,90,028	9,39,27,507
Repairs and Maintenance	18	3,00,47,125	2,31,35,466
Miscellaneous expenses	19	1,54,115	41,095
Depreciation	5	10,05,99,131	
Prior Period expenditure	20	18,50,59,013	

## Total (B)

		96,37,94,427	60,33,95,919
--	--	--------------	--------------

Balance being surplus / (Deficit) carried to

## Capital Fund (A-B)

		-29,27,25,887	2,59,17,628
--	--	---------------	-------------

Significant Accounting Policies

21

Contingent liabilities &amp; Notes as Accounts

22

Scd/-

Asst Finance Officer

Scd/-

Dy. Finance Officer

Scd/-

Finance Officer

## Schedule 1 – Capital Fund

Amount in Rs.

Particulars	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year	1,65,14,29,912	1,48,59,93,349
Add Grants from UGC Govt. of India and State Govt. utilized for capital expenditure	11,08,95,747	12,43,55,274
Add Books purchased out of Exim Bank Fund	2,04,273	-
Add Assets Donated/Gifts Received	1,99,906	1,51,63,661
Total	1,76,27,29,838	1,62,55,12,284
(Deduct) Reduction of capital fund due to reduction of 2/3 cost of Kendriya Vidyalaya	-61,66,000	-
(Deduct) Reduction of capital fund due to Depreciation for all the years upto and including 2003-2004	-67,82,62,298	-
(Deduct) deficit transferred from the Income & expenditure account	-29,27,25,887	2,59,17,628
Balance at the year end	78,55,75,652	1,65,14,29,912

Sd/-

Asst. Finance Officer

Sd/-

DY Finance Officer

Sd/-

Finance Officer

## Schedule 2 – Corpus Fund

Amount in Rs.

Particulars	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year	5,16,06,143	3,76,13,749
Add Enrolment Fees	29,24,170	40,04,744
Add Recognition fees and affiliation Charges	30,00,485	30,00,000
Add Matching Contribution from UGC	-	58,06,092
Add university share of consultancy fees.	13,02,262	1,39,071
Add Interest Income (Includes interest on investments of funds of sponsored projects and Bank Account, amounting to Rs. 1,44,09,912/-)	1,82,73,617	22,06,059
Total	7,71,06,676	5,27,69,715
Less Revenue Expenditure	12,17,849	11,63,572
Balance at the year end	7,58,88,827	5,16,06,143

Note:- 1. The Amount of Rs. 1,44,09,912/- includes Rs. 1,27,31,626/- due to be paid from

2. The Balance of 7,58,88,827 is represented by :

- Investments	5,18,27,000
- Balance in S.B.A/c	95,74,502
- Due from Sponsored Project A/C	1,27,31,626
- Interest Accrued but Not due on Investment of Funds of Sponsored Projects	16,78,286
- Interest Accrued but Not due on Investment of Corpus Funds	77,413

Sd/-

Asst Finance Officer

Sd/-

Dy. Finance Officer

Sd/-

Finance Officer

Schedule 3: Earmarked/Endowment Funds

Particulars	HBA Fund	Conveyance fund	Exim Bank Library Fund	UGC JRF Fund	Nippon Foundation Fund	Genetic Engg. Unit Fund	Centre of Applied Human Genetics Fund	Spl Programme in Science Policy	SBI R & D A/C	Endowment Funds	Amount in Rs.	
											Totals	Current Year
a) Opening balance	3,21,51,150	43,61,404	15,73,150	3,63,24,786	3,34,841	1,47,761	16,13,945	-	21,436	6,57,12,984	14,22,40,457	14,22,40,457
b) Additions during the year ••	1,16,54,920	68,14,677	-	3,19,42,792	4,40,15,632	-	14,93,200	8,25,412	-	56,16,917	10,23,63,550	10,23,63,550
i) Income from investments made of the funds •	15,71,654	1,12,796	28,044	10,46,300	8,84,938	5,217	30,204	12,714	3,700	68,12,083	1,05,07,649	1,05,07,649
ii) Accrued Interest on investments made of the funds •	4,32,968	-	16,042	4,54,652	2,08,128	-	-	-	-	14,50,163	25,61,953	25,61,953
iii) Other additions	2,65,64,638	1,15,44,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (a) + (b) i	7,23,73,330	2,28,32,374	16,17,236	6,97,68,530	4,54,43,539	1,52,978	31,37,349	8,38,126	25,136	7,95,92,147	29,57,82,744	29,57,82,744
c) Utilisation Expenditure towards objectives of funds	35,25,381	1,03,28,434	2,04,273	3,65,94,011	4,15,500	-	27,05,663	3,19,813	-	27,82,503	5,68,75,578	5,68,75,578
i) Revenue expenditure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Capital Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (c)	35,25,381	1,03,28,434	2,04,273	3,65,94,011	4,15,500	-	27,05,663	3,19,813	-	27,82,503	5,68,75,578	5,68,75,578
Closing balance at the year end (a + b - c)	6,88,49,949	1,25,03,940	14,12,963	3,31,74,519	4,50,28,039	1,52,978	4,31,686	5,18,313	25,136	7,68,09,644	23,89,07,166	23,89,07,166
Represented by												
Cash And Bank Balance	2,65,94,510	15,98,846	2,96,921	27,19,866	8,04,279	1,52,978	4,31,685	5,18,313	25,136	1,17,45,225	4,46,87,759	4,46,87,759
Investments	1,85,00,000	-	11,00,000	3,00,00,000	4,40,15,632	-	-	-	-	6,36,14,256	15,72,39,888	15,72,39,888
Interest accrued but not due	2,30,69,248	1,03,81,413	16,042	4,54,652	2,08,128	-	-	-	-	14,50,163	3,55,79,646	3,55,79,646
Recoverable amount out of March Salary	6,86,191	5,23,680	-	-	-	-	-	-	-	-	12,09,871	12,09,871
	6,88,49,949	1,25,03,939	14,12,963	3,31,74,518	4,50,28,039	1,52,978	4,31,685	5,18,313	25,136	7,68,09,644	23,89,07,164	23,89,07,164
Previous Year	3,21,51,150	43,80,404	15,73,150	3,63,24,786	3,34,841	1,47,761	16,13,945	-	21,436	57,12,984	14,22,40,457	14,22,40,457

Note: • Less: 10% rebate 174

•• Nippon Foundation Fund Received US\$ 1(one) Million lying in SUI Bahrain, see Accounting Policy 8.5

Asst Finance Officer

By Finance Officer

Finance Officer

## Schedule 4—Current Liabilities and Provisions

Amount in Rs.		Current year	Previous Year
<b>A. Current Liabilities</b>			
1. Deposits from staff		6,39,249	-
2. Deposits from students			
i Library Fund		1,18,950	1,19,450
ii Student's Aid Fund		1,82,206	2,80,187
iii Students Fund		11,52,605	9,27,611
iv Student Hostel Security		4,21,089	4,13,339
v Student Security Deposit		16,06,927	15,36,327
3. Deposits others (including EMD, Security Deposit)		3,39,34,938	2,73,19,757
4. Statutory liabilities (GIS, GPF, TDS, Work contract Tax)			
a. Overdue			
b. Others		1,02,11,756	-
5. Other current liabilities			
a) Salary		1,67,95,824	-
b) Receipts against ongoing sponsored/consultancy/ projects(Net)		17,95,37,515	15,53,79,791
c) Receipts against sponsored conferences/Seminars (Net)		-	-
d) Consultancy fees Intellectual fee for distribution		-	-
e) Unutilized grants from UGC/Govt. of India/ State Govt - Carried Forward		33,06,33,578	20,55,19,695
f) Other Funds (V.C.Fund)		3,45,916	3,41,302
g) Others (Specify)			
i Outstanding Liabilities including S.Creditors		2,97,03,203	-
ii Lic Group Insurance Claims		1,68,356	1,54,750
iii Other Current Liabilities		18,48,970	11,96,784
h) Receipts against Sponsored Fellowship & Scholarships		89,80,366	-
<b>Total (A)</b>		<b>61,62,81,448</b>	<b>39,31,88,993</b>
<b>B. Provisions</b>			
1. Gratuity *		3,41,780	-
2. Superannuation/Pension *		31,09,431	-
3. Leave Encashment		-	-
4. Claims		-	-
5. Others (specify)		-	-
<b>Total (B)</b>		<b>34,51,211</b>	<b>-</b>
<b>Total (A + B)</b>		<b>61,97,32,659</b>	<b>39,31,88,993</b>

\* Capitalised value received from previous employers

*Self*  
Asst. Finance Officer

*Self*  
Dy. Finance Officer

*Self*  
Finance Officer

Schedule 4.5(e): Unutilised grants from UGC, Government of India and State Government

	Current Year	Previous Year
<b>A. Plan grants: Govt. of India</b>		
Balance B/F		
Add Receipts during the year	1,87,33,444	
Less utilized for Revenue exp	55,50,600	
Less utilized for capital exp	1,31,82,844	
Unutilized carried forward		
<b>B. UGC grants:</b>		
Balance B/F	34,30,37,337	
Receipts during the year	66,84,37,683	
Less utilized for Revenue exp.	58,31,28,539	
Less utilized for capital exp.	9,77,12,903	
Unutilised carried forward *	33,05,33,578	
<b>C. Grants from State Govt</b>		
Balance B/F		
Add Receipts during the year	89,702	
Less utilized for Revenue exp	89,702	
Less utilized for Capital exp.		
Balance carried forward		
<b>Total Grant Received</b>	<b>68,72,60,829</b>	

Note :- \* For capital Expenditure. Includes advances on Capital Account

*Sey*  
Asst. Finance Officer

*Sey*  
Dy. Finance Officer

*Sey*  
Finance Officer

S.No	Assets Heads	Gross Block				Depreciation for the Year 2004-05			Net Block 31.03.2005	Net Block 31.03.2004
		Op Balance 01.04.04	Additions	Deductions	CI Balance	Depreciation Opening Balance	Depreciation for the Year	Deductions/ Adjustment		
1	Land	2,44,53,672	-	-	2,44,53,672	-	-	-	2,44,53,672	2,44,53,672
3	Site Development	5,38,67,150	2,75,570	-	5,41,42,720	-	-	-	5,41,42,720	5,38,67,150
7	Buildings	37,48,58,148	13,02,408	-	37,61,60,556	7,97,02,375	75,23,211	-	8,72,25,586	29,51,55,773
	Buildings (Kendriya Vidyalaya)	61,66,000	-	-61,66,000	-	-	-	-	-	61,66,000
5	Roads & Bridges	7,04,489	-	-	7,04,489	69,883	14,050	-	83,933	6,20,516
2	Tubewells & Water Supply	86,86,828	14,08,395	-	1,00,95,223	19,48,907	2,01,904	-	21,50,811	79,44,412
4	Sewerage & Drainage	23,20,720	95,409	-	24,16,129	6,96,212	48,323	-	7,44,555	16,71,594
6	Electrical Installation and equipment	6,96,65,472	80,67,893	-	7,77,33,365	2,74,06,073	38,86,668	-	3,12,92,741	4,64,40,624
8	Plant & Machinery	42,33,904	11,28,903	-	53,62,807	12,89,926	2,68,140	-	15,58,066	38,04,741
9	Scientific & Laboratory Equipment	18,37,07,800	73,97,413	-	19,11,05,213	14,02,11,442	1,52,88,417	-	15,54,99,559	3,56,05,654
10	Office Equipment	1,72,71,832	27,88,190	-	2,00,60,022	1,32,42,689	15,04,502	-	1,47,47,191	53,12,831
11	Audio Visual Equipment	1,98,88,821	8,65,153	-	2,07,53,974	1,71,87,314	15,56,548	-	1,87,43,862	20,10,112
12	Computers & Peripherals	11,71,04,686	2,04,86,407	-	13,75,91,093	9,63,08,860	2,75,18,219	-	12,38,27,079	1,37,64,014
13	Furniture, Fixtures & Fittings	4,73,67,496	1,21,32,401	-	5,94,99,897	2,63,35,329	44,62,492	-	3,07,97,821	2,87,02,076
14	Vehicles	44,57,123	3,67,305	-	48,24,428	44,57,122	36,731	-	44,93,853	3,30,575
15	Lib. Books & Scientific Journals	27,84,18,903	2,81,16,957	-	30,65,35,860	23,77,41,983	3,06,53,386	-	26,83,95,569	3,81,40,291
16	Other	7,63,63,000	-	-	7,63,63,000	3,16,64,483	76,36,300	-	3,93,00,783	3,70,62,217
	SBI & Revenue Expenditure	5,12,874	-	-3,77,756	1,35,118	-	-	-	1,35,118	5,12,874
	Total:	1,29,00,48,918	8,44,32,404	-65,43,756	1,36,79,37,566	67,82,62,298	10,05,99,131	-	77,88,61,429	58,90,76,137
18	Capital Work in Progress	16,63,05,603	2,68,67,522	-	19,31,73,125	-	-	-	19,31,73,125	16,63,05,603
	Grand Total (1-18)	1,45,63,54,521	11,12,99,926	-65,43,756	1,56,11,10,691	67,82,62,298	10,05,99,131	-	77,88,61,429	78,22,49,262

Note: The additions during the year of Rs 11,12,99,926 were from Plan - Rs 6,24,30,123, Non-Plan - Rs 4,84,65,624, EMF (Exim Bank Library) - Rs 2,04,273 and Books Donated to the University worth Rs 1,99,906.

*Sd/-*  
Asst Finance Officer

*Sd/-*  
By Finance Officer

*Sd/-*  
Finance Officer



S.No	Assets Heads	Gross Block				Depreciation for the Year 2004-05				Net Block 31.03.2005	Net Block 31.03.2004
		Op Balance 01.04.04	Additions (Plan)	Additions (Non- Plan)	Deductions	CI Balance	Depreciation Opening Balance	Depreciation on Op Bal	Depreciation on Plan	Depreciation on Non-Plan	Total Depreciation
1	Land	2,44,53,672	-	-	-	2,44,53,672	-	-	-	-	2,44,53,672
2	Site Development	538,67,151	-	-	-	5,41,42,720	-	-	-	-	5,41,42,720
3	Buildings	37,48,58,148	13,03,408	-	-	37,61,60,556	7,97,02,375	74,97,163	26,048	-	8,22,25,586
4	Buildings (Kendriya Vidyalaya)	61,66,000	-	-	-61,66,000	-	-	-	-	-	-
5	Roads & Bridges	7,04,489	-	-	-	7,04,489	69,883	14,090	-	-	83,973
6	Tubewells & Water Supply	86,86,128	3,97,813	10,10,532	-	1,00,95,223	19,48,907	1,73,737	7,956	20,212	21,50,811
7	Sewerage & Drainage	31,20,720	-	95,409	-	31,30,129	6,96,212	16,414	-	1,908	7,44,535
8	Electrical Installation and equipment	6,96,63,172	40,54,328	40,13,563	-	7,77,31,363	2,74,06,072	34,83,274	2,02,716	2,00,678	3,12,92,741
9	Plant & Machinery	42,31,504	43,640	10,55,233	-	53,62,807	12,89,926	2,11,693	2,184	54,261	15,58,046
10	Scientific & Laboratory Equipment	18,37,07,800	57,29,397	16,67,816	-	19,11,05,213	14,02,11,142	1,46,96,624	4,58,368	1,32,425	15,54,99,559
11	Office Equipment	1,72,71,832	4,17,448	23,40,730	-	2,00,90,010	1,32,42,889	12,95,387	33,558	1,75,556	1,47,47,191
12	Audio Visual Equipment	1,98,88,821	-	8,65,131	-	2,07,53,954	1,71,87,314	14,91,462	-	64,886	1,87,43,862
13	Computers & Peripherals	11,71,04,686	1,70,00,739	34,83,668	-	13,75,91,093	9,63,08,860	2,34,20,937	34,62,148	6,97,134	12,38,27,079
14	Furniture, Fixtures & Fittings	4,71,67,496	9,29,399	1,12,03,002	-	5,94,99,897	2,63,35,329	69,703	69,703	8,40,235	3,07,97,821
15	Transportation	44,57,123	3,23,855	14,430	-	48,34,428	44,57,123	-	35,286	1,445	44,93,853
16	Lib. Books & Scientific Journals	27,84,18,903	1,10,73,019	1,70,43,938	-	30,65,35,860	23,77,41,983	2,78,41,890	11,07,302	17,84,394	26,81,93,569
17	Others	7,63,63,000	-	-	-	7,63,63,000	3,16,64,483	76,36,900	-	-	3,93,00,783
18	SBI & Revenue Expenditure	5,12,874	-	-	-3,77,756	1,35,118	-	-	-	-	1,35,118
Total :		1,29,00,48,918	4,13,31,278	4,31,01,126	-65,43,756	1,34,79,27,366	67,82,62,298	9,13,61,733	53,43,271	38,94,125	77,88,61,429
Capital Work in Progress		16,63,05,603	2,10,98,843	57,68,672	-	19,31,73,123	-	-	-	-	19,31,73,123
Grand Total (1-18)		1,45,63,54,521	6,24,30,123	4,88,69,803	-65,43,756	1,54,11,10,691	67,82,62,298	9,13,61,733	53,43,271	38,94,125	77,88,61,429

\* Includes Rs 2,04,273 from Exim Bank Library Fund and Rs 1,99,908 from Books Donated to the University

*Sd/-*  
Asst Finance Officer

*Sd/-*  
Dy Finance Officer

## Schedule 6: Investments from Corpus Fund and Earmarked/Endowment Funds

	Amount in Rs.	
	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	1,98,27,000	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Debentures and Bonds	3,20,00,000	-
4. Others Bank FDRs	20,79,56,888	14,59,91,655
<b>Total</b>	<b>20,79,56,888</b>	<b>14,59,91,655</b>

## Earmarked/Endowment Funds (Fund wise)

Funds	Amount in Rs.	
	Current Year	Previous Year
1 Corpus Fund Investments	5,18,27,000	3,86,43,757
2 Endowment Fund Investments	6,36,14,256	5,88,47,898
3 House Building Advance Fund Investments	1,85,00,000	1,85,00,000
4 Nippon Foundation Fund Investments *	4,40,15,632	-
5 UGC Fellowship Fund Investment	3,00,00,000	3,00,00,000
<b>Total</b>	<b>20,79,56,888</b>	<b>14,59,91,655</b>

Nippon Foundation Fund Received US\$ 1(One) Million lying in SBI Bahrain, see Accounting Policy 8.5

*[Signature]*  
Asst Finance Officer

*[Signature]*  
Dy. Finance Officer

*[Signature]*  
Finance Officer

Schedule 7: Current Assets, Loans & Advances			Amount in Rs.	
Particulars	Current Year	Previous Year		
A. Current Assets:				
3. Cash and Bank Balances:				
a. Cash in hand (including stamps, imprest cash and cheques / Drafts)	2,70,368	1,10,775		
b. Bank Balances with scheduled banks				
- in current accounts	21,44,31,360	17,45,31,360		
- in Deposit account (including Fixed Deposits) *	34,18,48,568	43,83,31,152		
- in saving accounts				
c. Cash in transit				
Total (A)	55,65,50,296	61,29,73,287		

Note: Annexure A shows the details of Bank balances

\* Plan Account Fixed deposits includes Rs. 50,000/- FD against Bank Guarantee furnished for granting licence for campus Radio

Asst Finance Officer

Dy. Finance Officer

Finance Officer

Particulars	Amount in Rs.	
	Current Year	Previous Year
B. Loans And Advances		
a. Loans:		
b. Advances To Employees (Non-Interest Bearing)		
- Salary	3,36,521	4,35,071
- Festival	7,10,570	
- LTC		
c. Advances And Other Amounts Recoverable In Cash Or In Kind Or For Value To Be Received		
- Advances To Suppliers	12,67,07,187	2,25,85,142
- Advances On Capital A/C	56,32,819	
- Others		
d. Prepaid Expenses		
- Insurance	42,578	
- Other Expenses	3,95,622	
e. Income Accrued but not due		
- On Investments From		
Earmarked/Endowment Funds		
Deposit Account	3,55,79,646	
Corpus Fund	2,34,919	
Sponsored Project (Added to Corpus Fund)	77,413	
Fixed Deposits made out of Plan Account	16,78,286	
f. Others-current assets, misc. exp	19,52,297	
g. Claims Receivable (Group Insurance subscription)		1,04,351
		21,478
Total B	17,33,47,858	2,31,46,042
Total (A - B)	72,98,98,154	63,61,19,329

Note :- As revolving funds have been created for House Building, Computer and Vehicle advances to staff, the Advances will appear as part of earmarked/ endowment Funds. The balances against these advances will not appear in this schedule.

Asst Finance Officer

Dy. Finance Officer

Finance Officer

## Schedule-A

Bank Accounts	Amount in Rs.
Earmarked Fund A/C	17,62,60,515
General Account (With Post Office)	1,15,618
Gomati Guest House A/C	2,28,197
Grants From UGC A/C	3,02,89,438
JNU Entrance Exams A/C	1,84,19,431
Scholarship A/C	25,46,788
University Receipts	80,10,783
Centre of Applied Human Genetics A/C	4,31,685
Combined Entrance Exams(CBT) A/C	3,31,03,435
Corpus Fund A/C	95,74,502
Deposit A/C	2,11,34,911
Development (Plan) Account	48,86,723
DST Genetic Engg Unit Bank A/C	1,52,978
Exim Bank Library A/C	2,96,921
Fellowship A/C	27,19,866
Nippon foundation (FCRA) A/C	8,04,279
SBI Conveyance A/C	15,98,846
SBI HBA Fund A/C	2,65,94,510
SBI R & D A/C	25,136
Seminar on Welfare State Systems, Development A/C	2,12,105
Student A/C	36,31,594
Student Air Fund A/C	2,91,994
Special Programme in Science Policy	5,18,313
Term Deposit With Scheduled Banks	34,18,48,568
Total	21,44,31,360
	55,62,79,928

*Sef*  
Finance Officer

*Sef*  
Dy. Finance Officer

*Sef*  
Asst Finance Officer

## Schedules forming part of the Income &amp; Expenditure Account for the year ended on 31st March 2005

## Schedule-8 Grants/Subsidies (Irrevocable grants and Subsidies received)

Particulars	Amount in Rs.			
	Govt. of India	UGC	State Government	Total
Balance B/f		34,30,37,337		34,30,37,337
Add Receipts During the year	1,87,33,444	66,84,37,683	89,702	68,72,60,829
Total	1,87,33,444	1,01,14,75,020	89,702	1,03,02,98,166
Less Utilised for Capital Expenditure	1,31,82,844	9,77,12,903		11,08,95,747
Balance	55,50,600	91,37,62,117	89,702	91,94,02,419
Less Balance Carried Forward		33,06,33,578		33,06,33,578
Less Utilised for Revenue Expenditure	55,50,600	58,31,28,539	89,702	58,87,68,841

*[Signature]*  
Asst Finance Officer

*[Signature]*  
Dy Finance Officer

*[Signature]*  
Finance Officer

## Schedule-8a- Grants

S.NO	Particulars	Amount in Rs.		
		Plan	Non-Plan	Total
1	Opening Balance	20,33,71,558	13,96,65,779	34,30,37,337
2	Grants from UGC	14,82,44,683	52,01,93,000	66,84,37,683
3	Grants from Government of India	1,87,33,444	-	1,87,33,444
4	Grants- from State Govt.	89,702	-	89,702
5	Gross Total	37,04,39,387	65,98,58,779	1,03,02,98,166
6	Less Utilized for Capital Expenditure	6,24,30,123	4,84,65,624	11,08,95,747 (A)
7	Balance	30,80,09,264	61,13,93,155	91,94,02,419
8	Less Balance Carried forward	29,05,66,464	4,00,67,114	33,06,33,578 (B)
9	Utilized for Revenue Expenditure	1,74,42,800	57,13,26,041	58,87,68,841 (C)

(A) Appears as additions to Capital Fund as well as Additions to Fixed Assets during the year.

(B) (i) Appears under current Liabilities in the Balance Sheet and will become the opening balance next year.

(ii) Represented by Bank balances and Advances on Capital/Revenue Accounts on the assets side.

(C) Appears as income in the Income and Expenditure Account.

*[Signature]*  
Asst Finance Officer

*[Signature]*  
Dy Finance Officer

*[Signature]*  
Finance Officer

## Schedule 9 : Academic Receipts

Particulars	Amount in Rs.	
	Current year	Previous year
A. Fees from Students		
a) Academic		
1. Entrance examination fees	1,89,62,728	80,53,606
2. Admission fees	95,63,372	1,05,77,949
3. Enrolment fees	-	2,88,500
i. Tuition fees	-	-
ii. Library fees	-	-
iii. Others	-	-
b) Examination		
1. Annual examination fees	-	71,115
2. Marks sheet fees	50,921	-
3. Others-Registration Fees, Overhead Charges	23,88,059	-
c) Other fees		
1. Medical fees	-	-
2. Convocation Fees	-	-
3. Other Miscellaneous fees	-	92,108
d) Hostel fees	5,29,355	6,80,377
B) Sale of Admission forms	1,66,21,432	1,91,54,934
C) Sale of Question Papers	13,69,280	-
Total	4,94,85,147	3,89,18,589

*Self*  
Asst Finance officer

*Self*  
Dy Finance Officer

*Self*  
Finance Officer



Schedule II : Income from Royalty, Publications etc			Amount in Rs.
Particulars	Current year	Previous year	
1. Income from Royalty	2,30,619	1,56,599	
2. Income from sale of publications	34,536		
3. other : (specify)			
Total	2,65,155	1,56,599	

*Sd/-*  
Asst Finance officer

*Sd/-*  
Dy Finance Officer

*Sd/-*  
Finance Officer

Schedule 12 : Interest earned		Amount in Rs.	
Particulars	Current year	Previous year	
1. On Term Deposits with scheduled Banks *	1,18,21,874	10,72,260	
2. On savings Accounts with scheduled banks	44,32,223	32,56,760	
3. On Loans			
a. Employees/Staff			
b. Others			
4. On Debtors and other Receivables			
Total	1,62,54,097	43,29,020	
Tax Deducted at Source Rs Nil	....	....	

\* Includes Rs. 19,52,297/- being Interest accrued on Fixed deposits made out of plan account

*Sd/-*  
Asst Finance officer

*Sd/-*  
Dy Finance Officer

*Sd/-*  
Finance Officer

Schedule 12a : Income from Investments from Earmarked/Endowment funds

Particulars	Current year	Previous year
1. Interest		
a. On Government Securities		
b. On Debentures & Bonds		
2. On Term Deposits with scheduled Banks	1,18,66,378	
3. On savings Accounts with scheduled banks	12,03,224	
Total (Transferred to respective Earmarked/Endowment Funds)	1,30,69,602	
Tax Deducted at Source Rs Nil	.....	

*Self-*  
Asst Finance officer

*Self-*  
Dy Finance Officer

*Self-*  
Finance Officer

Schedule 13 -- Other Income

Amount in Rs.		
Particulars	Current Year	Previous Year
1) Licence Fee from quarters	24,06,419	23,24,998
2) Rent from Guest House	28,84,047	23,46,659
3) Rent from shops, Accommodation-Post office, Bank etc.	56,06,751	41,64,605
4) Leave Salary and Pension Contribution	15,20,502	-
5) Income from Sponsored Schemes	-	-
6) Charges for use of Transport	-	-
7) Water & Electricity charges	-	-
8) Sale/disposal of assets-loss of 1 card	-	-
9) CGHS Recoveries	-	-
10) Miscellaneous income (Sale Proceeds of unserviceable stores/ empties, waste paper, Tender papers, prospectus, Fines and Penalties, other miscellaneous income)	23,95,281	75,54,051
<b>Total</b>	<b>1,48,12,999</b>	<b>1,63,90,313</b>

*Self*  
Asst Finance officer

*Self*  
Dy Finance Officer

*Self*  
Finance Officer

Schedule 14 – Prior Period Income		Amount in Rs.	
Particulars		Current Year	Previous Year
Prior Period Income		14,82,301	
Total		14,82,301	

*Sd/-*  
Asst Finance officer

*Sd/-*  
Dy Finance Officer

*Sd/-*  
Finance Officer

Schedule 15 – Establishment Expenses

Schedule 15 – Establishment Expenses							Amount in Rs.
Particulars	Current Year			Previous Year			
	Plan	Non Plan		Total	Plan	Non Plan	
a. Salaries, wages and allowances	55,73,055	39,93,61,475	40,49,34,530	31,40,953	36,02,34,254	36,33,75,207	
b. Contribution to Provident Fund	-	36,95,931	36,95,931	-	28,41,630	28,41,630	
c. Contribution to other funds (New Pension Scheme)	-	5,38,144	5,38,144	-	5,09,871	5,09,871	
d. Bonus	-	29,61,392	29,61,392	-	29,59,270	29,59,270	
e. Staff welfare expenses	-	1,00,759	1,00,759	-	95,227	95,227	
f. Employees' Retirement and Terminal Benefits (Pension, Gratuity, leave encashment)	-	8,29,08,802	8,29,08,802	-	6,61,88,601	6,61,88,601	
g. Fees & Honorarium	-	-	-	-	3,22,831	3,22,831	
h. Leave salary and Pension Contribution	-	1,12,787	1,12,787	-	-	-	
i. Others	-	-	-	-	-	-	
Gross Total	55,73,055	48,96,79,290	49,52,52,345	31,40,953	43,31,51,684	43,62,92,637	
Less Prior Period Expenses	2,58,822	3,50,73,958	3,53,32,780	-	-	-	
Total	53,14,233	45,46,05,332	45,99,19,565	31,40,953	43,31,51,684	43,62,92,637	

*Self*  
Asst Finance Officer

*Self*  
Dy Finance Officer

*Self*  
Finance Officer

Schedule 16 – Academic Expenses

Particulars	Current Year			Amount in Rs. Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
1. Chemicals and Glassware	-	16,95,993	16,95,993	-	53,76,728	53,76,728
2. Computer Hire charges	-	-	-	-	-	-
3. Admission Expenses	-	8,58,815	8,58,815	-	-	-
4. Animal House Expenses	6,874	3,07,999	3,14,873	-	7,02,791	7,02,791
5. Cadaver Collection and Preservation	-	-	-	-	-	-
6. Examination Expenses	20,18,217	1,06,46,069	1,26,64,286	14,10,595	1,12,51,019	1,26,61,614
7. Stipend to Students	6,93,498	45,32,503	52,26,001	7,92,334	29,93,176	37,85,510
8. Student Welfare Expenses	1,76,551	47,06,670	48,83,221	-	30,70,834	30,70,834
9. Teaching Material	97,082	15,76,052	16,73,134	-	24,16,665	24,16,665
10. Convocation	1,04,165	1,63,431	2,67,596	-	-	-
11. Honorarium to Guest Faculty	86,940	22,41,080	23,28,020	-	4,24,598	4,24,598
12. Journals & Periodicals	-	79,320	79,320	-	-	-
13. Fieldwork/Study Tour	3,86,137	8,46,700	12,32,837	-	-	-
14. Other Laboratory Expenses	60,36,155	12,80,546	73,16,701	1,93,87,707	21,72,767	2,15,60,474
15. Boarding & Lodging of Participants	13,33,966	-	13,33,966	-	-	-
Gross Total	1,09,39,585	2,89,35,178	3,98,74,763	2,15,90,636	2,84,08,578	4,99,99,214
Less Prior Period Expenses	17,73,260	17,76,053	35,49,313	-	-	-
Total	91,66,325	2,71,59,125	3,63,25,450	2,15,90,636	2,84,08,578	4,99,99,214

*Self*  
Asst Finance Officer

*Self*  
Dy Finance Officer

*Self*  
Finance Officer

Schedule 17 – Administrative Expenses			Current Year		Previous Year	
Particulars	Plan	Non Plan	Total	Plan	Total	
<b>A. Infra structure</b>						
i) Rent, Rates & Taxes	-	4,12,18,995	4,12,18,995	-	25,760	
ii) Electricity charges	-	5,83,71,872	5,83,71,872	-	5,74,95,433	
iii) Water charges	-	59,73,406	59,73,406	-	73,69,219	
iv) Security Charges	-	1,15,21,969	1,15,21,969	-	98,16,218	
v) Vehicle Running Expenses	-	3,98,153	3,98,153	-	4,81,408	
vi) Insurance	6,179	15,968	22,147	-	1,080	
vii) Mess Staff	-	14,38,235	14,38,235	-	-	
<b>B. Communication</b>						
i) Postage & Telegram	55,661	26,67,508	27,23,169	69,24,591	69,24,591	
ii) Telephones & Fax	14,27,192	44,82,714	59,09,906	-	-	
<b>C. Subscriptions to Academic Institutions</b>	68,568	1,71,157	2,39,725	1,78,668	1,78,668	
<b>D. TA to Members of Committees</b>	2,14,457	18,05,926	20,20,383	26,10,482	26,10,482	
<b>E. Advertisement and Publicity</b>	30,053	29,53,060	29,83,113	12,35,461	12,35,461	
<b>F. Legal Expenses</b>	-	10,07,738	10,07,738	2,22,175	2,22,175	
<b>G. Others</b>						
i) Printing and stationery (consumption)	2,26,980	33,92,962	36,19,942	29,27,193	29,27,193	
ii) Newspapers & periodicals	30,952	7,87,875	8,18,827	4,73,658	4,73,658	
iii) Travel & conveyance – Domestic	14,112	12,02,769	12,16,881	-	-	
iv) Travel – Foreign	-	-	-	-	-	
v) Auditor's remuneration	-	-	-	-	-	
vi) Hospitality expenses	1,01,769	16,07,953	17,09,722	-	-	
vii) Bank charges	90,458	1,34,567	2,25,025	10,40,654	10,40,654	
viii) Meeting expenses	1,14,811	6,295	1,21,106	-	-	
ix) Steering and Monitoring Committee expenses- TA to candidates	-	3,80,166	3,80,166	-	-	
x) Labour Charges, Daily Wages & Contract Labour	2,88,266	98,22,309	1,01,10,575	-	-	
xi) TA to Non Official	14,29,936	1,09,124	15,39,060	-	-	
xii) Floopies, CDs Etc	10,489	28,486	38,975	-	-	
xiii) Local Conveyance	56,491	8,47,274	9,03,765	-	-	
xiv) Annual Day Celebration	-	4,46,924	4,46,924	-	-	
xv) Liveries	-	20,17,976	20,17,976	-	-	
xvi) Honorarium	-	35,770	35,770	-	-	
xvi:) Other miscellaneous administrative expense	2,76,716	17,37,997	20,14,713	31,25,507	31,25,507	
<b>Gross Total</b>	<b>44,43,090</b>	<b>15,45,85,148</b>	<b>15,90,28,238</b>	<b>9,39,27,507</b>	<b>9,39,27,507</b>	
<b>Less Prior Period Expenses</b>	<b>21,693</b>	<b>7,21,657</b>	<b>7,38,210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Total</b>	<b>4,321,397</b>	<b>147,368,631</b>	<b>151,690,028</b>	<b>9,39,27,507</b>	<b>9,39,27,507</b>	

*Self*  
Asst Finance Officer

*Self*  
Dy Finance Officer

*Self*  
Finance Officer



Schedule 18 – Repairs & Maintenance		Amount in Rs.				
Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
a) Cleaning Material & Services	1,40,015	29,48,049	30,88,064	-	32,39,808	32,39,808
b) Fire fighting systems	-	-	-	-	-	-
c) Gardening	4,365	3,54,134	3,58,499	-	-	-
d) Maintenance of Buildings	7,94,008	2,01,91,130	2,09,85,138	-	76,84,026	76,84,026
e) Maintenance of Roads	-	-	-	-	1,05,85,272	1,05,85,272
f) Maintenance of Office Equipment	3,41,756	41,17,803	44,59,559	33,054	2,64,134	2,97,188
g) Maintenance of Computers	78,832	10,55,553	11,34,385	-	62,477	62,477
h) Maintenance of Vehicles	19,560	2,81,499	3,01,059	-	8,98,118	8,98,118
i) Furniture & Fixtures	38,327	9,52,315	9,90,642	-	3,26,884	3,26,884
j) Book Binding Charges	-	50,848	50,848	-	41,693	41,693
Gross Total	14,16,863	2,99,51,330	3,13,68,193	33,054	2,31,02,412	2,31,35,466
Less Prior Period Expenses	1,05,491	12,15,577	13,21,068	-	-	-
Total	13,11,372	2,87,35,753	3,00,47,125	33,054	2,31,02,412	2,31,35,466

Note: It includes expenditure on Annual Maintenance Contracts.

*Sd/-*  
Asst Finance Officer

*Sd/-*  
Dy Finance Officer

*Sd/-*  
Finance Officer

## Schedule 19 -- Miscellaneous Expenses

Particulars	Current Year				Previous Year	
	Amount in Rs.		Amount in Rs.		Amount in Rs.	
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
1. Tools and Plants W/off Carried under fixed assets from 1975-76	-	1,04,351	1,04,351	-	-	-
2. Revenue Expenses W/off Carried under fixed assets in earlier years	-	49,764	49,764	-	-	-
Total	-	1,54,115	1,54,115	-	-	-

*Sd/-*  
Asst Finance Officer

*Sd/-*  
Dy Finance Officer

*Sd/-*  
Finance Officer

Schedule 20 – Prior Period Expenses		Amount in Rs.			
Particulars		Current Year		Previous Year	
		Plan	Non Plan	Plan	Total
1. Unutilized portion of non plan grants B/F		-	13,75,17,642	-	-
2. Establishment Expenses	2,58,822		3,50,73,958		3,53,32,780
3. Academic Expenses	17,73,260		17,76,053		35,49,313
4. Administrative Expenses	1,21,693		72,16,517		73,38,210
5. Repair & maintenance Expenses	1,05,491		12,15,577		13,21,068
Total	22,59,266	18,27,99,747	18,50,59,013		-

*Sef =*  
Asst Finance Officer

*Sef =*  
Dy Finance Officer

*Sef =*  
Finance Officer

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2005.

SCHEDULE : 21 :  
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS.

The Accounts are prepared under the Historical Cost Convention unless otherwise stated and generally on the Accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

- 2.1 Fees from students, Sale of Admission Forms, Interest on Saving Bank a/c are accounted on cash basis.
- 2.2 Income from Land, Buildings and Other Property and Interest on Investments are accounted on accrual basis.
- 2.3 Interest on interest bearing advances to staff for House Building, Purchase of Vehicles and Computers is accounted on accrual basis every year, though the actual recovery of interest starts after the full repayment of the Principal.

3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION.

- 3.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.
- 3.2 Fixed assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided on Straight line method, at the following rates:

1	Land	0%
2	Site Development	0%
3	Buildings	2%
4	Roads & Bridges	2%
5	Tube wells & Water Supply	2%
6	Sewerage & Drainage	2%
7	Electrical Installation and equipment	5%
8	Plant & Machinery	5%
9	Scientific & Laboratory Equipment	8%
10	Office Equipment	7.5%
11	Audio Visual Equipment	7.5%
12	Computers & Peripherals	20%
13	Furniture, Fixtures & Fittings	7.5%
14	Vehicles	10%
15	Lib. Books & Scientific Journals	10%
16	Others	10%

3.3 Full depreciation is provided on additions during the year.

3.4 Where an asset is fully depreciated, it will be carried at a residual value of Re 1 in the Balance Sheet and will not be further depreciated.

3.5 Assets created out of Earmarked Funds, where the ownership of such assets vests in the university, are setup by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the university. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets.

4. **STOCKS:** Expenditure on purchase of chemicals, glassware, publications, stationery and other stores is accounted as revenue expenditure.

5. **RETIREMENT BENEFITS**

Retirement benefits i.e., pension, gratuity and leave encashment are accounted on cash basis. Capitalized Value of pension and Gratuity received from previous employers of the university employees, who have been absorbed in the university, is credited to the respective Provision Accounts.

6. **INVESTMENTS**

All investments are valued at cost.

7. **CORPUS FUND** was established in 1996-97. Matching contribution from University Grants Commission, Recognition fee / Affiliation fee received from Colleges and other academic institutions, university's share of Consultancy fees, overhead charges recovered from Projects and interest earned on sponsored Project Funds are treated as additions to Corpus fund.

Income from investments of the Fund is added to the Fund. The Corpus Fund is utilized for both Revenue and Capital expenditure based on the guidelines issued by the University Grants Commission and the Executive council of the university from time to time. The assets created out of the Corpus Fund are merged with the assets of the university by crediting an equal amount to the Capital Fund. The balance in the Corpus Fund which is carried forward is represented by the balance in a separate Bank account, Investment in Fixed Deposits with the Bank and Accrued Interest on investment included in Current Assets.

8. The following long-term funds are earmarked for specific purposes. Each of the funds has a separate bank a/c. Those with large balances also have investments in Government Securities, Debentures and Bonds and Term Deposits with Banks. The income from investments / advances (House Building & Conveyance) on accrued basis and interest on saving Bank Accounts are credited to the respective Funds. The expenditure and advances (in the case of House Building & Conveyance Advance Funds) are debited to the Fund. The balance is carried forward and is represented on the assets side by the balance at Bank, Investments and accrued interest (Current Assets).

Endowments are funds received from various individual donors, Trusts and other organizations, for establishing Chairs and for awarding Medals & Prizes, as specified by the Donors. While each of the Endowment funds has its own investment, there is one Savings Bank Account for all the Endowment funds, as the uninvested balances against them are negligible.

The income from investment of each Endowment Fund on accrual basis is added to the Fund. The interest on Savings Bank a/c is allocated to all the Endowment funds in the ratio of the year end closing balances in each fund. The expenditure on the Chairs, Medals & Prizes is debited to the respective Endowment Funds and the balance is carried forward. The balance is represented by Investment in Fixed Deposits, accrued interest (Current Assets) and total balance in the Saving Bank Account common for all Endowments.

**8.1 House Building Advance fund**

A revolving fund for the purpose of paying interest bearing advances to officers & staff for House Building.

**8.2 Conveyance Fund**

A revolving fund for the purpose of paying interest bearing advances to officers & staff for the purchase of motor cars, two wheelers and computers.

**8.3 Exim Bank Library fund**

Fund provided by Exim Bank for construction of a library in its name and equipping it with Books & Scientific Journals.

**8.4 UGC-JRF Fund**

Fund provided by UGC for the purpose of paying Fellowships to junior Research Fellows.

**8.5 Nippon Foundation fund**

Fund provided by Nippon Foundation in US Dollars and invested in SBI Bahrain, in Fixed Deposits, the interest from which is utilized to award Fellowships to outstanding students majoring in Social Sciences & Humanities fields

**8.6 Genetic Engineering Unit fund - No operations - under closure.**

**8.7 Centre of Applied Human Genetics fund**

Funds provided by the University Grants Commission for carrying out focused Research Programmes in the area of Human Genomics and associated disciplines and for establishing nation wide linkages & Partnerships.

8.8

Special Programme in Science Policy.

The fund on the Special Programme on Science Policy (SPSP) was setup with the objective of strengthening of the activities of Center for Studies in Science Policy by giving a special thrust on teaching, training and research in frontier areas and strengthening of faculty as well as infrastructural facilities.

8.9

SBI R&D A/c

Fund provided by State Bank of India for undertaking research on Forecasting Financial Variables.

8.10

Endowment Funds

9. GOVERNMENT AND UGC GRANTS

9.1

Government Grants and UGC grants are accounted on realization basis.

9.2

To the extent utilized towards capital expenditure, government grants and grants from UGC are transferred to the Capital Fund.

9.3

Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.

9.4

Unutilized grants (including advances paid out of such grants) are carried forward and exhibited as a Liability in the Balance Sheet.

10.

INVESTMENT OF EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS AND INTEREST INCOME ACCRUED ON SUCH INVESTMENTS:

To the extent not immediately required for expenditure, the amounts available against such funds are invested in approved Securities & Bonds or deposited for fixed term with Banks, leaving the balance in Saving Bank Accounts.



Interest received, interest accrued and due and interest accrued but not due on such investments are added to the respective funds and not treated as Income of the University.

#### 11. SPONSORED PROJECTS

- 11.1 In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provisions – Current Liabilities – Other Liabilities – Receipts against ongoing sponsored projects." As and when expenditure is incurred / advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited. Overhead charges recovered from projects are credited to the Corpus Fund in accordance with the decision of the Executive Council of the university.
- 11.2 In addition to the Earmarked Fund for Junior Research Fellowships funded by the University Grants Commission, Fellowships and Scholarships are also sponsored by various organizations. These are accounted in the same way as Sponsored Projects except that the expenditure generally is only on disbursement of Fellowships and Scholarships, which may include allowances for contingent expenditure by the Fellows and Scholars.
- 11.3 The university itself also awards Fellowships and Scholarships, which are accounted as Academic expenses of the university.
- 11.4 Interest earned on short-term investments of sponsored Projects is credited to the Corpus Fund.

#### 12. INCOME TAX

The income of the University is exempt from Income Tax under Section 10(23c) of the Income Tax Act. No provision for tax is therefore made in the accounts.

*Self*  
Asst. Finance officer

*Self*  
Dy. Finance Officer

*Self*  
Finance Officer

## SCHEDULE: 22 :

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

## 1. CONTINGENT LIABILITIES:

- 1.1 As on 31.03.2005 20 suits filled against JNU, by former / present employees of JNU were pending for decisions by various courts. They were establishment related viz promotions, increments, pay scales, termination etc. The quantum of the claims is not ascertainable.
- 1.2 Letter of credit opened by the Bank on behalf of JNU and outstanding on 31.03.05 – Rs 16,05,120.

## 2. CAPITAL COMMITMENTS

The Value of contracts remaining to be executed on capital Account and not provided for (Net of Advances) amounted to Rs 8,15,50,000, as on 31.03.05.

## 3. FIXED ASSETS:

- 3.1 Fixed Assets in Schedule 5 include Library Books and Journals of the value of Rs 2,04,273 purchased in 2004-05 out of Exim Bank Library Fund (Earmarked Fund), as the ownership in the assets created out of this Fund vests in the university. The Asset has been set up by credit to Capital Fund.
- 3.2 Kendriya Vidyalyaya Building constructed at a cost of Rs 87,05,139 in 1983-84 is jointly owned by the University, Indian Institute of Technology-New Delhi and All Indian Council of Technical Education. The cost of the building was borne by all the three institutions equally, and a sum of Rs 61,66,000 was received from IIT and AICTE, as their share. However in the accounts up to 2003-04 the total cost of the Building was shown as an asset owned by JNU by crediting the amount received from the two institutions to the Capital Fund. This has been rectified in the accounts of 2004-05 to reflect only one third ownership of the Building as part of the Fixed Assets, by debit to Capital Fund.

- 3.3 Building of State Bank of India shown at a value of Rs 4,63,110 in the Balance Sheet as on 31.03.2004 was not taken up for construction. The amount consisted of Rs 4,00,000 advanced to CPWD and Rs 63,110 being the payment to the Architect. After adjustment of the advance, a balance of Rs 1,35,118 has been carried forward, pending decision about the disposition of the amount.
- 3.4 In the Balance Sheet as on 31.03.2004 and the Balance Sheets of earlier years, Fixed Assets created out of Plan funds and Fixed Assets created out of non-plan funds were not exhibited distinctly. The additions during the year 2004-05, from Plan and non-plan funds, and the depreciation on those additions respectively have been exhibited distinctly in Sub Schedule 5A to the main schedule of Fixed Assets (Schedule 5)

### DEPRECIATION

Depreciation on Fixed Assets was not being provided in the past. With the change from cash accounting to Accrual Accounting System, Depreciation has been provided for the first time, for all the previous years up to 31<sup>st</sup> Mar 2004 in the accounts for the year 2004-05 by debit to Capital Fund. For the purpose of determining the quantum of depreciation for all the previous years, depreciation has been calculated systematically for each of the last ten years at the rates stipulated in the Accounting Policy and at ad hoc rates to cover all the years up to and including 1993-94. The ad hoc rates adopted were:

1	Land	0%
2	Site Development	0%
3	Buildings	10%
4	Roads & Bridges	10%
5	Tube wells & Water Supply	10%
6	Sewerage & Drainage	10%
7	Electrical Installation and equipment	25%
8	Plant & Machinery	25%
9	Scientific & Laboratory Equipment	40%
10	Office Equipment	37.5%
11	Audio Visual Equipment	37.5%

12	Computers & Peripherals	50%
13	Furniture, Fixtures & Fittings	37.5%
14	Vehicles	50%
15	Lib. Books & Scientific Journals	50%
16	Others	50%

Depreciation for the year 2004-05 has been provided and debited to the Income & Expenditure Account.

#### 5. EARMARKED FUNDS – NIPPON FOUNDATION FUND

The rupee equivalent of one million US Dollars held by the university in the State Bank of India, Bahrain since July 2003, has been brought into the Books of Account in 2004-05 and accounted for as an Earmarked Fund (Schedule 3).

#### 6a. NON-PLAN GRANTS

Non-Plan Grants to the extent of Rs 13,96,65,779 carried forward in the form of Bank balance and advances were treated as Income in the accounts of the year 2003-04, under the cash system of accounting. This has been brought in to the Accounts of 2004-05 as opening balance of Non-Plan Grants, by debit to Prior Period Expenses.

#### 6b. SALARIES:

As this is the first year of change over to accrual system of accounting, expenditure of 13 months' salaries have been accounted for in 2004-05. Salaries for March 2004 paid in April 2004 have been classified as Prior Period expenses, and provision for salaries for March 2005 has been made in the accounts for 2004-05 as Outstanding Liability.

**7. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES**

In the opinion of the Management, the Current assets, Loans and advances have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

8. The details of balances in Savings Bank Account and Fixed Deposit Accounts with Banks are enclosed as attachment 'A'.

9. Previous years figures have been regrouped wherever necessary.

10. Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.

11. Schedules 1 to 21 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2005 and the Income & Expenditure account for the year ended on that date.

12. As the Provident Fund Accounts and the New Pension Scheme Account are owned by the members of those funds and not by the university, these accounts were separated from the University Account, in 2004-05. However, a Receipts & Payments Account, an Income & Expenditure Account (on Accrual basis) and a Balance Sheet of the Provident Fund Accounts as well as the New Pension Scheme, have been attached, to the university's Accounts.

  
Asst. Finance officer

  
Dy. Finance Officer

  
Finance Officer

## RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2005

	Current Year	Previous Year	Payments	Current Year	Previous Year
I. Opening balances:			I Expenses:		
a) Cash in hand	1,10,775	1,05,801	a. Establishment	12,47,58,501	43,62,92,637
b) Bank balances			b. Administrative	15,53,00,128	9,39,27,507
in Current Accounts			c. Academic	3,79,84,419	4,99,99,215
in Deposit Accounts	17,45,31,360	-	d. Repairs and Maintenance	2,80,69,072	2,31,35,466
in savings Accounts	43,83,31,153	40,49,82,365	e. Miscellaneous	-	41,095
in Provident Fund A/C			III Payments against earmarked endowment funds	5,83,99,583	53,00,704
II. Grants Received		46,92,934	III. Payments against funds for various projects	9,60,02,780	11,38,04,724
III. Donations and contributions	68,72,60,829	71,68,57,155	III.a Payments against funds for various fellowships	4,03,04,778	-
IV. Academic receipts	4,94,25,147	3,90,75,188	IV Investments and Deposits		
V. Earmarked funds/ endowments	4,92,61,777	1,18,49,562	a) Out of Earmarked, Endowment & Corpus Funds	6,29,07,533	63,48,324
VI. Receipts against sponsored Projects/schemes	12,01,53,270	12,14,96,508	b) Out of own funds.	-	9,71,43,757
VI.a Receipts against sponsored Fellowships/Scholarships	5,33,67,374	-	V Expenditure on Fixed Assets and Capital work-in-progress		
VII. Income on investments from	1,02,58,209	68,12,325	a) Fixed Assets	6,91,81,207	4,91,41,614
a) Earmarked Funds/Endowment Funds			b) Expenditure on Capital Work-in-progress	80,20,260	4,26,99,940
b) Own Funds		79,98,495	VI Salary Related Payments	31,33,64,172	-
VIII. Interest Received			VII Other Payments including Statutory Payments	1,65,12,365	3,80,41,311
a) on Bank Deposits	98,69,577	-	VIII Corpus Fund	12,17,849	-
b) Saving Bank A/C	44,32,223	63,61,102	IX Provident Fund	-	31,52,82,557
c) On Loan & Advances	-	63,89,687	X Deposits and Advances	13,20,41,983	3,81,37,186
IX. Deposits and Advances		4,08,61,906	XI Closing Balances		
X. Other Income	1,38,43,600	1,63,90,313	a) Cash in hand	7,70,368	1,10,775
			b) Bank Balances		
			in current Accounts		
			in Deposit Accounts	21,44,31,360	-
			in Savings Account	34,18,48,568	43,83,31,152
			c) In Provident Fund	-	58,40,406
XI. Misc. Receipts including Statutory Receipts	23,757,424	-			
XII Corpus Fund	23,744,834	-			
XIII Investments	45,207,373	53,275,000			
XIV Provident Fund	-	316,430,029			
Total	1,700,614,925	1,753,578,370	Total	1,70,06,14,925	1,75,35,78,370

Asst Finance Officer

Dy Finance Officer

Finance Officer

**Provident Fund Account**

Balance Sheet as at March 31, 2005

[illegible]

*Self*  
Asst Finance Officer

**Dy Finance Officer**

*Sch/*  
Finance Officer

## New Pension Scheme Account

Balance Sheet as at March 31, 2005

Particulars	31.03.05 Particulars	Amount in Rs.
		31.03.05
Own Subscription	Amount to be Recovered from Uni. 5,29,391 For Own Subscription for March	1,12,672
University Contribution	Amount to be Recovered from Uni. 5,29,391 For Uni. Contribution for March	1,12,672
Amount Excess Recovered from Uni. For Own Subscription for January & March *	Amount Excess Recovered from Uni. 15,571.00 For Own Subscription for March *	8,854.00
Surplus from I & E A/C	8,753.00 Balance in Bank A/C	8,48,908
	10,83,106	10,83,106
* Diff in Own Contribution and Univ. Contribution is Excess Amount Recovered from Salary		
January	8,769.00 Refunded to Laxmi Devi	2,052.00
March	Balance To be Refunded and the 8,854.00 amount of Diff.	15,571.00
	17,623.00	17,623.00

*Self*  
Finance Officer

*Self*  
Dy Finance Officer

*Self*  
Asst Finance Officer



**Audit Certificate**


I have examined the Receipts and Payments Account and the Income and Expenditure Account for the year ending 31 March 2005 and Balance Sheet as on 31 March 2005 of Jawaharlal Nehru University. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject the observations in the appended Audit Report, which *inter-alia* contains the following major audit observations, majority of which have been persistent over the years:

- Wrong depiction of receipts of sponsored projects Rs. 17.95 crore. (Para 2.1.1)
- Non disclosure of Contingent liabilities Rs. 15.90 crore in respect of property tax in the Notes to accounts. (Para 2.1.2)

I certify as a result of my audit, that in my opinion these accounts and the Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of Jawaharlal Nehru University according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Place :- New Delhi

Dated :- 6.3.2006



Director General of Audit  
Central Revenues